

वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से  
डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 51 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 18 दिसम्बर 2015-अग्रहायण 27, शके 1937

### भाग 3 ( 1 )

#### विज्ञापन

#### अन्य सूचनाएं नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, गणपतलाल गुजराती/गणपतलाल भियान्जा/गणपत/गणपतलाल पुत्र श्री गोपाल के नाम से जाना, पहचाना जाता हूँ. ये चारों नाम मेरे स्वयं के हैं, परन्तु अब मैं समस्त शासकीय/अशासकीय कार्यों में गणपतलाल गुजराती पुत्र श्री गोपाल के नाम का ही उपयोग करने लगा हूँ.

अतः भविष्य में मुझे गणपतलाल गुजराती पुत्र श्री गोपाल के नाम से ही जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :

( गणपतलाल गुजराती/गणपतलाल भियान्जा/  
गणपत/गणपतलाल )

पुत्र श्री गोपाल.

(496-बी.)

नया नाम :

( गणपतलाल गुजराती )

पुत्र श्री गोपाल,

निवासी—ग्राम नवादा, तहसील नागदा,

जिला उज्जैन (म.प्र.).

#### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, किरन रायचन्दानी जो कि भारतीय स्टेट बैंक स्थानीय प्रधान कार्यालय में ग्राहक सहायक के पद पर कार्यरत हूँ का विवाह उपरान्त नाम श्रीमती पूर्वी दलवानी हो गया है. अतः अब भविष्य में मुझे श्रीमती पूर्वी दलवानी नाम से ही जाना एवं लिखा, पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

( किरन रायचन्दानी )

(498-बी.)

नया नाम :

( पूर्वी दलवानी )

#### CHANGE OF NAME

I, here by declared that, my names correct Spelling is KSHAMA JAIN but before some time my name's Spelling was written as CHAMA JAIN, in all of my and my Son and my Husbands passport. so now I want to correct it as CHAMA JAIN to KSHAMA JAIN.

Henceforth my name will be known & written as KSHAMA JAIN in all of my, my Childern and in my Husbands documents including Passport also.

Old Name :

**(CHAMA JAIN )**

(499-B.)

New Name :

**(KSHAMA JAIN)**

18 A, New Agrawal Nagar,  
Indore (M. P.).

### उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण एवं खास को ज्ञात हो कि मैं, गेंदनलाल लक्ष्कार, आयु 57 वर्ष, पिता श्री रामाधार लक्ष्कार, निवासी म. प्र. पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड, अमरकण्ठक ताप विद्युत केन्द्र, चर्चाई, जिला अनूपपुर, म. प्र. में वरिष्ठ संयंत्र सहायक (वर्कशॉप) के पद पर पदस्थ हूँ. मेरे सेवा अभिलेख (सेवा पुस्तिका) में गेंदनलाल लखेर लिख गया है जबकि मेरी उपजाति लक्ष्कार है. मैं गेंदनलाल लखेर व गेंदन लाल लक्ष्कार एक ही व्यक्ति है उपनाम लखेर के स्थान पर लक्ष्कार लिखा व पढ़ा जावे.

अतः गजट के माध्यम से मैं यह घोषित करता हूँ कि मेरा नाम गेंदनलाल उपनाम लक्ष्कार है. मुझे इसी नाम व उपनाम से पढ़ा व समझा जावे.

पुराना नाम :

**( गेंदनलाल लखेर )**

(495-बी.)

नया नाम :

**( गेंदनलाल लक्ष्कार )**

पिता रामाधार लक्ष्कार  
निवासी—चर्चाई, थाना चर्चाई,  
तह. व जिला अनूपपुर ( म. प्र.).

### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्रों में मेरा नाम कु. दीपिका भट्ट पुत्री श्री सुरेश कुमार भट्ट अंकित है. अब मैंने अपना नाम परिवर्तित कर कु. रेशमा सिद्दीकी रख लिया है. अतः भविष्य में मुझे मेरे नए नाम रेशमा सिद्दीकी से जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :

**( दीपिका भट्ट )**

(500-बी.)

नया नाम :

**( रेशमा सिद्दीकी )**

पता—शाहजहाँनाबाद, भोपाल ( म. प्र.).

### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्रों में मेरा नाम कु. श्वेता भट्ट पुत्री श्री सुरेश कुमार भट्ट अंकित है. अब मैंने अपना नाम परिवर्तित कर कु. नायमा सिद्दीकी रख लिया है. अतः भविष्य में मुझे मेरे नए नाम नायमा सिद्दीकी से जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :

**( श्वेता भट्ट )**

(501-बी.)

नया नाम :

**( नायमा सिद्दीकी )**

पता—शाहजहाँनाबाद, भोपाल ( म. प्र.).

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मै. जय काली माँ कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, श्योपुर में आज दिनांक को बैठक 08-12-2015 को निर्णय लिया गया है. जिसमें फर्म के पार्टनर श्री धर्मेन्द्र सिंह जादौन व मुन्नी चौहान को आपसी सहमति से फर्म से पृथक् कर सुनील चतुर्वेदी को लेने का निर्णय लिया गया है.

मै. जय काली माँ कन्स्ट्रक्शन कम्पनी,  
विजयसिंह  
( पार्टनर ).

(493-बी.)

कल्याणपुरम कॉलोनी, श्योपुर.

**आम सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे. शुक्ला कान्स्ट्रक्शन कम्पनी, बेलवा सुरसरी सिंह, तहसील सिरमौर, जिला रीवा, म. प्र. से दिनांक 30-10-2015 से निम्न पार्टनरों को पृथक् किया जाता है. 1. श्री रामनाथ शुक्ला, 2. श्रीमती मुन्नी देवी शुक्ला उक्त दिनांक से ही फर्म में एक नये पार्टनर श्री प्रांशु शुक्ला को शामिल किया जा रहा है, शेष पार्टनर फर्म में यथावत् बने रहेंगे.

(494-बी.)

मे. शुक्ला कान्स्ट्रक्शन कम्पनी,  
जीतेन्द्र शुक्ला  
रीवा (म. प्र.).

**PUBLIC NOTICE**

Know all men that the Shri Radhyeshyam Choubey S/o Late Badri Prasad Choubey R/o Maharajpur, Thana Adhartal, Tehsil Panagar, Distt. Jabalpur, Jabalpur (M.P.) have been retired from the registered firm **M/s Radhyeshyam Associates, Jabalpur (Reg. No. 04/14/01/00400/13, Year 2012-13, Dated 14.03.2013)** w.e.f. 08.10.2015. The firm, has now six partners as Rajesh Rai, Pradeep Chouksey, Ram Maheshwari. Anshul Malik, Ramesh Gupta and Pramod Choudhari.

That the registered office of the Firm has been shifted from H.No. 592, In Front of Hanuman Mandir, Maharajpur, Thana Adhartal, Tehsil Panagar, Distt. Jabalpur to. 1522, Dr. Barat Road, Napier Town, Jabalpur w.e.f. 08.10.2015).

For : M/s Radhyeshyam Associates

**ANSHUL MALIK**  
( Partner).  
Jabalpur.

(486-B.)

**PUBLIC NOTICE**

Know all men that the Firm **M/s JABALPUR TOLLS, Jabalpur (Reg. No. 04/14/01/0006/09, Year 2009-10, Dt. 23.05.2009)** formed on 15.05.2009 with 5 partners. The firm amended on 06.07.2009 introducing 4 new partners Narayan Prasad Pandey, Aniruddha Singh Chaturvedi, Alankar Khamparia & Ramji Dwivedi and retiring Arvind Rawat, Digvijay Tripathi, Shravan Kumar Bagri & Pramod Chaturvedi and next amended on 09.03.2010 introducing 2 new partners Hemant Thakur & Umesh Pandey and retiring Narayan Pandey & Alankar Khamparia next amendment on 01.04.2015 introducing 7 new partners Shyam Sunder Khamparia, Mohammed Shahabuddin, Mohammed Afraj, Mohammed Sharif, Amardeep Kumar, Anand Singh, Ganga Prasad Pandey and retiring Aniruddh Singh Chaturvedi and Hemant Thakur. The constitution of the firm as on 01.04.2015 with 10 partners as Amit Kumar, Umesh Prasad Pandey, Shyam Sunder Khamparia, Mohammed Shahabuddin, Mohammed Afraj, Mohammed Sharif, Amardip Kumar, Ganga Prasad Pandey & Ramji Dwivedi.

That the registered office of the Firm has been shifted from 3162, Ganga Nagar, Garha, Jabalpur to Head Office at Durga Colony, Sanjeevani Nagar, Garha, Jabalpur and Branch Office at 903, Badi Omti, Jabalpur w.e.f. 01.04.2015).

For : M/s Jabalpur Tolls,

**AMIT KUMAR**  
( Partner).  
Jabalpur.

(487-B.)

**PUBLIC NOTICE**

Know all men that the 4 new partners Shri Rakesh Kumar Jain, Smt. Sadhana Jain. Shri Nitin Kumar Jain & Smt. Preeti Jain have been admitted in the registered firm **M/s SHRI JAIN DEVELOPERS [Reg. No. 04/14/01/00400/12, year 2011-12, Dt. 14.02.2012]**, Jabalpur w.e.f. 02.11.2015. Now the firm has 8 partners as Shri Akhilesh Jain, Shri Anand Jain, Smt. Richa Jain, Shri Vivek Jain, Shri Rakesh Kumar Jain, Smt. Sadhana Jain, Shri Nitin Kumar Jain & Smt. Preeti Jain.

That the registered Office of the Firm M/s Shri Jain Developers, Jabalpur has been shifted from H.No. 90, Shyam Band Gali, Jawaharganj, Jabalpur to C/o Shri Anand Jain, Plot No. 1/2B. 1<sup>st</sup> Floor. Chamber No. 1, Opp. Sales Tax Office, Jabalpur w.e.f. 02.11.2015.

For : M/s Shri Jain Developers

**ANAND JAIN**  
( Partner).  
Jabalpur.

(488-B.)

**PUBLIC NOTICE**

Know all men that the Firm **M/s SUDHA SAGAR ASSOCIATE, Jabalpur [Reg. No. 04/14/01/00165/14, Year 2014-15, Dt. 28.10.2014]** formed on 08.10.2013 with 4 partners. The firm amended on 01.01.2015 introducing 3 new partners Ratnesh Jain, Smt. Ruchita Jain & Smt. Sachi Jain. The constitution of the firm as on 01.01.2015 with 7 partners as Saral Jain, Amit Kumar Jain, Chand Kumar Jain, Rajesh Kumar Jain, Ratnesh Jain, Smt. Ruchita Jain & Smt. Sachi Jain.

For : M/s Sudha Sagar Associate

**SARAL JAIN**  
( Partner).  
Jabalpur.

(489-B.)

**PUBLIC NOTICE**

Know all men that the Firm **M/s JAI SONBHADRA TOLLS, Jabalpur (Reg. No. 04/14/01/00092, Year 2012-13, Dt. 27.06.2012)** formed on 06.06.2012 with 7 partners. The firm amended on 01.04.2014 introducing 2 new partners Mohammed Shahabuddin & Mohammed Afraj and retiring Ramji Dwivedi, Raghunath Singh, Aniruddh Singh and Ganga Prasad Pandey. The constitution of the firm as on 01.04.2014 with 5 partners as Amit (Kumar) Khamparia, Umesh Prasad Pandey, Shyam Sunder Khamparia, Mohammed Shahabuddin & Mohammed Afraj.

That the registered office of the Firm has been shifted from C/o Sai Services, Mulchand Market, Yadav Colony, Garha. Jabalpur to Head Office at 903, Badi Omti, Jabalpur and Branch Office at Durga Colony, Sanjeevani Nagar, Garha, Jabalpur w.e.f. 01.04.2014).

For : M/s Jai Sonbhadra Tolls,

**AMIT (KUMAR) KHAMPARIA**  
( Partner).  
Jabalpur.

(490-B.)

**आम सूचना**

मै. श्री पवनदेव कन्स्ट्रक्शन, मनोरमा कॉलोनी, सागर (म. प्र.) दिनांक 29-01-2011 से विवेक सिंह S/o श्री जगदीश सिंह, श्रीमति सतिबाई W/o श्री धोकलसिंह एवं श्रीमति चन्दीबाई पति जगदीश सिंह फर्म से अलग (रिटायर्ड) हो रहे हैं एवं दिनांक 29-01-2011 से श्री आई. पी. पटैल S/o श्री देवी प्रसाद पटैल, श्री अरविन्द सिंह S/o श्री राजेन्द्रसिंह ठाकुर एवं श्री विशाल सिंह S/o श्री मुलायम सिंह फर्म से जुड़ रहे हैं.

मेसर्स श्री पवनदेव कन्स्ट्रक्शन कम्पनी,  
सूर्यकांत,  
सागर (म.प्र.).

(491-बी.)

**आम सूचना**

आम जनता को सूचित किया जाता है कि मैं अपने पक्षकार श्री बलराम शुक्ला भागीदार मेसर्स पुष्पांजली इन्फ्रास्ट्रक्चर, Firm with Registration No. 01/01/01/00221/08, Date 03-03-2008, 1718, गुप्तेश्वर मेन रोड, कृपाल चौक, जबलपुर (म. प्र.) की ओर से अधिकृत होकर यह आम सूचना प्रकाशित कर रहा हूँ कि श्री जगदीश नारायण शुक्ला जो कि मेसर्स पुष्पांजली इन्फ्रास्ट्रक्चर में एक भागीदार थे, ने अपनी स्वेच्छा से फर्म की भागीदारी से दिनांक 31-03-2013 को निवृत्त हो चुके हैं एवं उनका फर्म के कार्य से कोई संबंध नहीं है, अतः सर्व-साधारण को सूचनार्थ.

**आशीष दीक्षित,**  
(अधिवक्ता).

(492-बी.)

**मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर**

इन्दौर, दिनांक 18 नवम्बर, 2015

**राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2013, परीक्षा दिनांक 23 मार्च, 2015 से 15 अप्रैल, 2015 संक्षिप्त समाचार विज्ञापित**

वि. क्र. 16867/27/2015/अनु.-10.—मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के विज्ञापन क्रमांक-05/परीक्षा/2013, दिनांक 30 दिसम्बर, 2013, (I) शुद्धि-पत्र क्रमांक-01/05/परीक्षा/2013/26 फरवरी, 2014, (II) शुद्धि-पत्र क्रमांक-02/05/परीक्षा/2013/03 मार्च, 2014, (III) शुद्धि-पत्र क्रमांक-03/05/परीक्षा/2013/12 मार्च, 2014, (IV) शुद्धि-पत्र क्रमांक-04/05/परीक्षा/2013/09 मई, 2014. राज्य सेवा परीक्षा के कुल-755 पदों

के लिये मध्यप्रदेश के चार संभागीय मुख्यालय इन्दौर, भोपाल, ग्वालियर एवं जबलपुर में दिनांक 23 मार्च, 2015 से 15 अप्रैल, 2015 तक आयोजित की गई थी। उपरोक्त परीक्षा में श्रेणीवार संख्या के पदों के तीन गुना जिसमें समान अंक प्राप्त अर्ह आवेदक भी सम्मिलित हैं। प्रावधिक अर्ह घोषित किया गया है। एक परीक्षार्थी का परीक्षा परिणाम माननीय न्यायालय के निर्णय के अध्यधीन है।

घोषित परीक्षा परिणाम में आवेदकों की कुल प्रावधिक अर्ह संख्या-2270 है, इनमें महिला कुल-829, निःशक्तजन कुल-112, भूतपूर्व सैनिक कुल-35 सम्मिलित हैं। इस परीक्षा परिणाम में भूतपूर्व सैनिक कुल-46, निःशक्तजन कुल-18 कम पाए गए हैं। अर्ह आवेदक संख्या में समान अंक आवेदक-05 सम्मिलित हैं।

साक्षात्कार हेतु प्रावधिक अर्ह आवेदकों हेतु अनुप्रमाणन फार्म एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म आयोग की वेबसाईट [www.mppsc.com](http://www.mppsc.com), [www.mppscdemo.in](http://www.mppscdemo.in) एवं [www.mppsc.nic.in](http://www.mppsc.nic.in) पर उपलब्ध है। प्रावधिक अर्ह अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अनुप्रमाणन फार्म एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म डाउनलोड करके विधिवत् भरकर अनुप्रमाणन फार्म (एक प्रति) एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म (एक प्रति) उसके साथ जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण-पत्र, निवास-प्रमाण-पत्र, विकलांग प्रत्याशी विकलांगता प्रमाण-पत्र एवं भूतपूर्व सैनिक आवेदक भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण-पत्र, शासकीय सेवक सेवा का प्रमाण-पत्र एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं अन्य समस्त प्रमाण-पत्र जिसकी आवेदन-पत्र में जानकारी दी गई है, के समर्थन में इनकी सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न कर दिनांक 23 दिसम्बर, 2015 तक आयोग कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करेंगे। जिन आवेदकों के अभिलेख अंतिम तिथि तक आयोग कार्यालय में प्राप्त नहीं होंगे उनके विषय में यह माना जायेगा कि वे साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाहते हैं। अतः उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आवेदक द्वारा आवेदन-पत्र में दी गई जानकारी की आयोग कार्यालय द्वारा सूक्ष्म जाँच पश्चात् ही सही पाई जाने पर ही आवेदक को साक्षात्कार की पात्रता होगी।

साक्षात्कार की तिथि पृथक् से घोषित की जाएगी।

वंदना वैद्य,  
उप-सचिव।

(637)

इन्दौर, दिनांक 18 नवम्बर, 2015

राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2013, परीक्षा दिनांक 23 मार्च, 2015 से 15 अप्रैल, 2015

राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2013, का लिखित परीक्षा परिणाम

वि. क्र. 16867/27/2015/अनु.-10.—मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के विज्ञापन क्रमांक-05/परीक्षा/2013, दिनांक 30 दिसम्बर, 2013, (I) शुद्धि-पत्र क्रमांक-01/05/परीक्षा/2013/26 फरवरी, 2014, (II) शुद्धि-पत्र क्रमांक-02/05/परीक्षा/2013/03 मार्च, 2014, (III) शुद्धि-पत्र क्रमांक-03/05/परीक्षा/2013/12 मार्च, 2014, (IV) शुद्धि-पत्र क्रमांक-04/05/परीक्षा/2013/ 09 मई, 2014. राज्य सेवा परीक्षा के कुल-755 पदों के लिये मध्यप्रदेश के चार संभागीय मुख्यालय इन्दौर, भोपाल, ग्वालियर एवं जबलपुर में दिनांक 23 मार्च, 2015 से 15 अप्रैल, 2015 तक आयोजित की गई थी। उपरोक्त परीक्षा में श्रेणीवार संख्या के पदों के तीन गुना जिसमें समान अंक प्राप्त अर्ह आवेदक भी सम्मिलित हैं। प्रावधिक अर्ह घोषित किया गया है।

घोषित परीक्षा परिणाम में आवेदकों की कुल प्रावधिक अर्ह संख्या-2270 है, इनमें महिला कुल-829, निःशक्तजन कुल-112, भूतपूर्व सैनिक कुल-35 सम्मिलित हैं। इस परीक्षा परिणाम में भूतपूर्व सैनिक कुल-46, निःशक्तजन कुल-18 कम पाए गए हैं। अर्ह आवेदक संख्या में समान अंक आवेदक-05 सम्मिलित हैं। एक परीक्षार्थी का परीक्षा परिणाम माननीय न्यायालय के निर्णय के अध्यधीन है।

साक्षात्कार हेतु प्रावधिक अर्ह आवेदकों हेतु अनुप्रमाणन फार्म एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म आयोग की वेबसाईट- [www.mppsc.com](http://www.mppsc.com), [www.mppscdemo.in](http://www.mppscdemo.in) एवं [www.mppsc.nic.in](http://www.mppsc.nic.in) पर उपलब्ध है। प्रावधिक अर्ह अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अनुप्रमाणन फार्म एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म डाउनलोड करके विधिवत् भरकर अनुप्रमाणन फार्म (एक प्रति) एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म (एक प्रति) उसके साथ जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण-पत्र, निवास-प्रमाण-पत्र, विकलांग प्रत्याशी विकलांगता प्रमाण-पत्र एवं भूतपूर्व सैनिक आवेदक भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण-पत्र, शासकीय सेवक सेवा का प्रमाण-पत्र एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं अन्य समस्त प्रमाण-पत्र जिसकी आवेदन-पत्र में जानकारी दी गई है, के समर्थन में इनकी सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न कर दिनांक 23 दिसम्बर, 2015 तक आयोग कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करेंगे। जिन आवेदकों के अभिलेख अंतिम तिथि तक आयोग कार्यालय में प्राप्त नहीं होंगे उनके विषय में यह माना जायेगा कि वे साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाहते हैं। अतः उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आवेदक द्वारा आवेदन-पत्र में दी गई जानकारी की आयोग कार्यालय द्वारा सूक्ष्म जाँच पश्चात् ही सही पाई जाने पर ही आवेदक को साक्षात्कार की पात्रता होगी।

साक्षात्कार की तिथि पृथक् से घोषित की जाएगी।

परीक्षा परिणाम में प्रावधिक अर्ह पाये गये 2270 आवेदकों के रोल नम्बर एवं नाम की सूची निम्नानुसार है :—

MADHYA PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION  
STATE SERVICE MAIN EXAM, 2013  
ROLL NO. WISE LIST OF SUCCESSFUL CANDIDATES

S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
1.	100007	SATISH SOLANKI	
2.	100009	VEERENDRA RAIKWAR	
3.	100016	PRATIBHA BAGHEL	
4.	100019	DEVBALA CHOUHAN	
5.	100023	BHARATI DEVI MISHRA	
6.	100026	SHIVNANDAN TIWARI	
7.	100028	SURESH SISODIYA	
8.	100031	NEERAJ KUMAR SANODIYA	
9.	100032	VIKAS PUROHIT	
10.	100036	KAVITA SHRIVAS	
11.	100038	AJAY GOUR	
12.	100041	SUNIL VERMA	
13.	100042	ANURAG JAIN	
14.	100047	NILESH PRAJAPATI	
15.	100051	UTTAM KUMAR GUPTA	
16.	100052	MAHENDRA PATIDAR	
17.	100057	BALRAM YADAV	
18.	100061	SOMDUTT DIXIT	
19.	100062	RASHMI DHURVE	
20.	100063	GAMAD SURESH	
21.	100067	LAXMANSINGH MANDLOI	
22.	100072	KULDEEP SINGH THAKUR	
23.	100073	NEHA YADAV	
24.	100088	RAJENDRA BADUL	
25.	100090	NILESH MANDLOI	
26.	100093	SANGHMITRA MANVETKAR	
27.	100094	JAISHREE RATHORE	
28.	100098	PRADEEP KUMAR SONI	
29.	100101	NAVEEN DUBEY	
30.	100103	AKANKSHA PRAJAPATI	
31.	100104	GAURAV RAI	
32.	100112	NEHA SAHU	
33.	100113	AARTI KHEDEKAR	
34.	100117	MONIKA CHOUHAN	
35.	100118	VISHNU NARAYAN MISHRA	
36.	100120	RAHUL KATRE	
37.	100121	ANAMIKA PATEL	
38.	100123	PRADUMAN MEENA	
39.	100130	HARSHITA MEDA	
40.	100131	MANOJ SHELKE	

S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
41.	100134	PRIYANKA BAWNE	
42.	100137	POOJA GEHLOT	
43.	100140	SHAKTISINGH CHOUHAN	
44.	100166	RAJEEV KUMAR JAIN	
45.	100174	YOGENDRA SINGH BHATI	
46.	100182	KULDEEP KATHAIL	
47.	100185	RISHU KUMAR SUMAN	
48.	100187	RAGHAV PATSARIYA	
49.	100189	SHIVENDRA SINGH GEHLOT	
50.	100195	PRIYANKA SOLANKI	
51.	100198	NEELAM KANOJ	
52.	100204	VIKAS KUMAR NAG	
53.	100206	NAMITA RATHORE	
54.	100207	RAVI KUMAR MORE	
55.	100210	MONIKA MALVIYA	
56.	100214	JAYDEEP PUNGLIA	
57.	100220	MUKESH CHOUHAN	
58.	100224	RASHMI DUBEY	
59.	100229	MEENAKSHI PANDEY	
60.	100235	SHWETA MUNIYA	
61.	100240	SURENDRA KUMAR PATEL	
62.	100241	PRASHANT RATHORE	
63.	100242	VINITA CHOUDHARY	
64.	100243	SHAILLY SAIYAM	
65.	100244	SACHINDRA KUMAR PATLIYA	
66.	100256	YACHANA DIXIT	
67.	100258	RINU BHINDE	
68.	100265	RASHMI SAHU	
69.	100270	VINOD PATEL	
70.	100271	PALLAVI SHUKLA	
71.	100274	VISHNU DARSIMA	
72.	100281	MRIGENDRA SISODIYA	
73.	100282	VIJAY TALWARE	
74.	100284	OMNARAYAN SINGH BADKUL	
75.	100286	AVINASH JATAV	
76.	100287	DEEPAK VERMA	
77.	100290	AKASH SITOLE	
78.	100292	RAGHVENDRA SINGH RAGHUVANSHI	
79.	100294	SANDEEP BHILALA	
80.	100299	DEVENDRA PANT	
81.	100312	REKHA PANCHAL	
82.	100318	URMILA BISEN	
83.	100319	ROOPREKHA YADAV	
84.	100320	SABIHA KHAN	
85.	100325	MONIKA LAL	

S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
86.	100326	AJEET BRIJ	
87.	100328	KULVANT SINGH DHURVE	
88.	100330	ASHUTOSH MISHRA	
89.	100332	CHETAN DHARMIK	
90.	100333	DINESH CHOUDHARY	
91.	100337	ANAMIKA RAMTEKE	
92.	100345	MOOL CHAND GUPTA	
93.	100347	SANJAY GAIKWAD	
94.	100349	AJAY MALVIYA	
95.	100350	AMIT KUMAR TIWARI	
96.	100352	VAIBHAV DANGI	
97.	100355	SUNIL JAT	
98.	100360	VIKAS MANDLOI	
99.	100364	KIRAN PAWAR	
100.	100365	GANPAT SINGH DAWAR	
101.	100366	JAYA MUJALDE	
102.	100369	DURGESH NANDINI SHARMA	
103.	100370	KIRTI CHOUHAN	
104.	100373	PRAMILA SHERE	
105.	100375	RESHAM GAWALI	
106.	100377	ASHA BHARGAV	
107.	100379	NIRUPAMA PALIWAL	
108.	100383	MADHU NAYAK	
109.	100390	SACHIN BHASKARE	
110.	100391	SONIYA JAIN	
111.	100394	BHRANTI SAIYAM	
112.	100395	AANAND SINGH THAKUR	
113.	100405	MEGHA UIKEY	
114.	100406	RAJEEVA KUMAR BARDE	
115.	100410	RUKHSAR SIDDIQUI	
116.	100413	SANDHYA AGRAWAL	
117.	100414	RITESH TANDIYA	
118.	100415	BALVANT SINGH MOURYA	
119.	100418	MOHIT BHARTI	
120.	100419	RAMESH BHASKALE	
121.	100421	SANDEEP YADAV	
122.	100422	ROSHANI PATIDAR	
123.	100428	KAILASH NEWARE	
124.	100430	MANOJ SINGH	
125.	100434	ABHISHEK SINGH MEENA	
126.	100436	NAVNEET SAXENA	
127.	100437	LOVENEET KORI	
128.	100441	PRATIBHA BHABAR	
129.	100443	PREM Shankar PARMAR	
130.	100445	RUBY YADAV	



S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
131.	100455	GARIMA PATIDAR	
132.	100459	PARAG PANTHI	
133.	100462	LAXMI PARMAR	
134.	100466	APURVA KILLEDAR	
135.	100470	VIJAY KUMAR GORE	
136.	100472	NIDHI RAJPUT	
137.	100476	YASHWANT KUMRE	
138.	100478	NIRUPMA SHAH	
139.	100481	KAMLESH KUMAR MARKO	
140.	100483	MEENA JHA	
141.	100494	PANKAJ RASANIYA	
142.	100496	VIKRAM SINGH MANDLOI	
143.	100503	RAVI SONER	
144.	100504	CHANDAN SHAKYAWAR	
145.	100510	AVINASH PRATAP SINGH	
146.	100511	MALA AHIRWAR	
147.	100517	BRIJESH JINWAL	
148.	100519	BHAVNA DAWAR	
149.	100526	SWATI JAIN	
150.	100528	VISHA MADHWANI	
151.	100530	RAMESHWAR MUWEL	
152.	100542	RAHUL KUMAR PAAR	
153.	100546	YOGESH KUMAR UPADHYAY	
154.	100548	PIYUSH PRASAD CHAUDHARY	
155.	100549	NIDHI JAIN	
156.	100557	JYOTI KHARADI	
157.	100559	RAHUL SANKATE	
158.	100565	VARSHA CHOUHAN	
159.	100566	BALVANT SINGH NALWAYA	
160.	100568	BHAVANA RATHORE	
161.	100570	KIRAN CHOURASIA	
162.	100577	SHIVANI UKEY	
163.	100579	RAHUL RAO	
164.	100580	NISHA MEHRA	
165.	100587	VIJAY SINDRAM	
166.	100588	NIDHI PANDIT	
167.	100593	SULTAN SINGH MAIDA	
168.	100594	NAVNEET RAIKWAR	
169.	100595	ARUN SHARMA	
170.	100602	NEHA CHOUHAN	
171.	100603	RUCHIRA MOHITE	
172.	100618	VINEETA SHARMA	
173.	100625	PRIYANKA CHOUHAN	
174.	100627	CHETAN VAID	
175.	100628	ROHIT MUKATI	

S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
176.	100633	RANU BAIRAGI	
177.	100640	SHEETAL KAWACHHE	
178.	100645	VIKAS DAWAR	
179.	100650	SMITA CHOUHAN	
180.	100653	DILIP SINGH KUSHWAH	
181.	100662	NAMRATA GANGWAL	
182.	100663	PANKAJ LAHOTI	
183.	100667	MANISHA CHAVAN	
184.	100672	NITIN KUMAR WAGMODE	
185.	100673	SOURAV TIWARI	
186.	100676	AVINASH NAGLE	
187.	100679	DEEPIKA DWIVEDI	
188.	100684	RAHUL MANDLOI	
189.	100692	SAPNA RAI	
190.	100696	PRABHAKAR SINGH	
191.	100700	ADARSH SONI	
192.	100703	RITA GANAVA	
193.	100709	AJAY CHOUHAN	
194.	100710	SAVITA BHAYARE	
195.	100714	MUKESH KUMAR TAK	
196.	100715	VARSHA SHRIVAS	
197.	100717	ISHWAR LAL PARGI	
198.	100723	NISHA GUPTA	
199.	100725	TRILOCHAN GAUR	
200.	100731	RAJNI YADAV	
201.	100735	SUPRIYA PATHAK	
202.	100736	POOJA JAIN	
203.	100741	DEVENDRA JAIN	
204.	100743	SHWETA JAMRA	
205.	100754	PRAKASH SINGH MARAVI	
206.	100757	PRIYANKA VERMA	
207.	100758	AJAY MUJALDE	
208.	100761	SHIVRANJAN SINGH	
209.	100775	SANDEEP MALVIYA	
210.	100780	KAILASH DAMAR	
211.	100782	SAURABH RATNAKAR	
212.	100784	YASHDEEP RAWAT	
213.	100789	RAKESH BHURIYA	
214.	100791	DEEPA SINGH	
215.	100794	BHIMRAJ MANDELIYA	
216.	100796	PUSHPENDRA AJNARE	
217.	100797	PURUSHOTTAM BARIYA	
218.	100798	MAMTA KANESH	
219.	100800	UMESH SINGH ALASIYA	
220.	100802	JAISHRI BUNDEL	

S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
221.	100807	PAWAN BARIYA	
222.	100809	ASHISH SHUKLA	
223.	100814	RANJANA SONI	
224.	100816	SAURABH SHARMA	
225.	100821	MITHUN SINGH MEENA	
226.	100824	OJASWI TEMBHARE	
227.	100831	RASHMI RAJAVAT	
228.	100836	AJIT DONGRE	
229.	100837	SONAM RAWAT	
230.	100840	AJAY AHIRWAL	
231.	100843	MANDAKINI DIXIT	
232.	100845	MAHESH SINGH SOLANKI	
233.	100847	EKTA SONI	
234.	100848	BALU SINGH SASTIYA	
235.	100849	PRIYANKA KAMAL	
236.	100852	SONAM MALVIYA	
237.	100857	REENA BAGHEL	
238.	100858	RAM PRAVESH TIWARY	
239.	100859	NILESHWARI DAWAR	
240.	100860	APOORV BHALAVI	
241.	100864	SANGITA GOLIYA	
242.	100866	SARVENDRA KUMAR PANDEY	
243.	100870	KIRAN NINAMA	
244.	100871	PANKAJ PAVAIYA	
245.	100879	PRASANNA KUMAR GUPTA	
246.	100882	AKANKSHA SENGAR	
247.	100884	ARPIT SINGH BAGHEL	
248.	100889	PARAG JAIN	
249.	100890	BHUMIKA PANDEY	
250.	100895	SHRIRAM PATIDAR	
251.	100898	ANURAG JAIN	
252.	100910	VARSHA JAT	
253.	100916	GHANSHYAM BAIRAGI	
254.	100918	DEVENDRA CHOUHAN	
255.	100934	RASSU DAMOR	
256.	100963	GAURI SHANKAR RAJPUT	
257.	100973	MAMTA KANESH	
258.	100976	SANJAY RATHORE	
259.	100977	ASTHA PAWAR	
260.	100980	SATENDRA GUPTA	
261.	100987	MANOJ KUMAR MOURYA	
262.	100989	DIVYA S. PAVAIYA	
263.	100991	ANKITA BHIDODIYA	
264.	101003	TRIAMBIKA SHARMA	

S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
265.	101005	ATULESH MARKO	
266.	101010	VANDANA CHOUHAN	
267.	101012	RINA CHOUHAN	
268.	101020	PRADEEP MOURYA	
269.	101024	LALIT SINGH SIKARWAR	
270.	101026	YOGESH JATWA	
271.	101027	BAGHEL MOHABBAT SINGH	
272.	101029	ARJUN SINGH AANJNA	
273.	101030	MANISH JAIN	
274.	101032	LALITA GADARIYA	
275.	101036	ROHAN RAIKWAR	
276.	101038	VANCHNA SINGH PARIHAR	
277.	101039	ISHITA MASANIYA	
278.	101043	UDAY BHAN BAGRI	
279.	101045	NITIN BAGHEL	
280.	101054	PRATAP SINGH AJNAR	
281.	101056	DAYARAM VASUNIA	
282.	101057	KUSUM MEDA	
283.	101059	SUNEETA BARIYA	
284.	101061	PINKI PATEL	
285.	101075	DR.MEENA RATHORE	
286.	101078	AATMARAM SOLANKI	
287.	101080	VAIBHAV THAKUR	
288.	101086	SUNIL SINGUNE	
289.	101090	ISHWAR SINGH ANJNA	
290.	101091	JAGDISH RANDHA	
291.	101100	MANISH PANDEY	
292.	101107	JYOTI SUNANIYA	
293.	101109	HITESH PRAJAPATI	
294.	101111	RAJESH KOCHALE	
295.	101113	SURENDRA KUMAR AHIRWAR	
296.	101123	SURAJ SINGH JATAV	
297.	101133	BABITA JADON	
298.	101138	RISHI BHOSLE	
299.	101139	DEVENDRA KUMAR CHAKRAWARTI	
300.	101146	AMLESH PAL	
301.	101161	ROMA SONKAR	
302.	101162	SUMIT MEDA	
303.	101171	RAVI VARMA	
304.	101172	SANJU MEENA	

S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
305.	101173	ABHISHEK KUMAR	
306.	101177	SOURABH MARAVI	
307.	101191	SUNIL SISODIYA	
308.	101194	PRAVEEN THAKARE	
309.	101196	ANANDILAL DALODIA	
310.	101218	KALPANA YADAV	
311.	101223	DEEPAK KUMAR GURJAR	
312.	101228	BHUPENDRA VERMA	
313.	101230	SUMIT KUMAR GUPTA	
314.	101231	NIKESH KUMAR BHIDE	
315.	101234	RAKESH SINGH CHOUHAN	
316.	101237	KRISHNPAL DEWADA	
317.	101239	AVINASH PURI	
318.	101242	RACHANA CHOUDHARY	
319.	101245	ALANKRITA PAGARE	
320.	101246	JAYSHRI CHAUHAN	
321.	101247	MAHENDRA PATIDAR	
322.	101252	RAMESH MASARE	
323.	101254	AASTHA CHOURSIYA	
324.	101261	MONALI SURYAVANSHI	
325.	101282	ROHIT DAWAR	
326.	101291	NIRBHAY SINGH PATEL	
327.	101294	AMIT KUMAR SINGH	
328.	101298	DURGA BAMNIYA	
329.	101301	HARISH KESHARWANI	
330.	101306	SHRIKANT DEWAL	
331.	101311	SANJAY KUMAR DEHARIA	
332.	101319	RAGHVENDRA SINGH DHAKAR	
333.	101326	HIMANSHU KARTIKEY	
334.	101329	POOJA RATHORE	
335.	101330	SATENDRA SINGH GURJAR	
336.	101336	RUPESH KALE	
337.	101346	ANKITA GUPTA	
338.	101348	MOTILAL KUSHWAHA	
339.	101351	PREETI VERMA	
340.	101352	TEENA PANWAR	
341.	101357	SURESH CHANDRA MAKWANA	
342.	101360	BRIJ DAS MEENA	
343.	101362	SHASHIKALA KULDEEP	
344.	101363	RAJESH KERAWAT	

S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
345.	101364	SUBHASH ALAWE	
346.	101367	RANJANA SANKALA	
347.	101368	YASHSVI SHINDE	
348.	101369	POOJA SONI	
349.	101371	MANISHA RATHORE	
350.	101383	NIKITA UIKEY	
351.	101384	VIMLESH RATHORE	
352.	101397	DR.RAVINDRA SINGH CHOUHAN	
353.	101399	MANISHA CHOUHAN	
354.	101405	ANTIMBALA SENANI	
355.	101408	SWATI JAIN	
356.	101415	SANTOSH KUMAR AGRAWAL	
357.	101416	RAVINDRA BILWAL	
358.	101417	ARCHANA MAHOR	
359.	101418	SONAM JAIN	
360.	101419	NIRMALA DEWADA	
361.	101431	SATYAPRAKASH DHARNE	
362.	101432	AMIT KUMAR VYAS	
363.	101435	NEHA SINGHAI	
364.	101439	ANJALI PANWAR	
365.	101443	PRATEEK SINGH JHALA	
366.	101446	SEEMA CHOUHAN	
367.	101454	REENA PARMAR	
368.	101461	MANISH SHARMA	
369.	101463	MEGHA JOSHI	
370.	101468	SANGRAM SINGH DODIYAR	
371.	101481	ARVIND MUZALDA	
372.	101483	ANKIT JAMOD	
373.	101484	SHIKHA SHARMA	
374.	101488	HARSH KUMAR JAIN	
375.	101489	LOKENDRA SINGH SARAL	
376.	101494	AKLESH SOLANKI	
377.	101496	TANUJA MALVIYA	
378.	101500	JAMSINGH MUWEL	
379.	101501	SANJAY KUMAR PAHADE	
380.	101510	MANJULATA MALVIYA	
381.	101515	ANIL BHABOR	
382.	101520	NEHA PACHISIA	
383.	101521	PREETI AGRAWAL	
384.	101522	ROSHNI URETI	

S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
385.	101523	RAGHVENDRA SINGH PALIA	
386.	101528	PINKI RATHORE	
387.	101532	GAUTAM KUMAR MALVE	
388.	101539	SHIV PRATAP CHOUHAN	
389.	101540	DEEPAK BADOLE	
390.	101544	KAMAL SINGH NINGWAL	
391.	101550	AMARDAS SENANI	
392.	101555	YOGESH KUMAR DAMA	
393.	101560	SANJAY KUMAR DAWAR	
394.	101564	JYOTI BAGHELA	
395.	101572	VIKARAMA DITYA TRIPATHI	
396.	101574	REKHA BHARTI SAIYAM	
397.	101579	VAISHALI SISODIYA	
398.	101580	SUMAN LADIYA	
399.	101581	MANOJ BHILALA	
400.	101584	BASIRAM MUJALDE	
401.	101587	AMIT KUMAR TIWARI	
402.	101589	SATEESH KUMAR RAI	
403.	101590	VINOD KUMAR TAGORE	
404.	101591	INDULATA KHARKATE	
405.	101592	RAMLAL PAGARE	
406.	101593	JYOTI TURKAR	
407.	101594	ANURADHA SINGH	
408.	101603	JITENDRA PATIDAR	
409.	101610	PRIYANKA SHARMA	
410.	101613	JEEVAN SINGH KUMAWAT	
411.	101614	JYOTIKA THAKUR	
412.	101615	SURUCHI KHEDEKAR	
413.	101617	PRASHISH GAWAD	
414.	101618	BHAGVANDAS KUMRE	
415.	101619	RAHUL LAV ALAWA	
416.	101620	RATNESH KUMAR VAIDYA	
417.	101625	KAJAL SHAKTAWAT	
418.	101629	KUNAL RAUT	
419.	101630	PRIYANKA TIWARI	
420.	101632	NAMITA DHAMGAYE	
421.	101634	SONU INDORIYA	
422.	101637	KHUSHBOO MALVIYA	
423.	101640	PRASHASTI SINGH JAMARA	
424.	101643	NIKHIL KUMAR GANDHI	

S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
425.	101650	NARAN SINGH MUWEL	
426.	101654	RANJANA BAGHEL	
427.	101656	SHIKHA SONI	
428.	101659	MAMTA MIMROT	
429.	101662	PRIYA BUNDEL	
430.	101663	ASHISH BHARADE	
431.	101668	RAJENDRA GURJAR	
432.	101670	VIKASH KUMAR	
433.	101671	PRAMOD KUMAR KALME	
434.	101676	MANISH KUMAR KALWAR	
435.	101683	MONIKA SINGH PARIHAR	
436.	101684	LALLU SINGH ASKE	
437.	101685	BHUPENDRA RAWAT	
438.	101691	NEHA CHOUHAN	
439.	101693	KIRAN CHOUHAN	
440.	101694	SANJAY SINGH YADAV	
441.	101696	MEENAKSHI JAISWAL	
442.	101699	SAPANA CHOURASIYA	
443.	101700	DAMINI SINGH	
444.	101706	RAMVEER SINGH DHAKAR	
445.	101707	HIMANSHU KHATARKER	
446.	101715	DEVENDRA SHARMA	
447.	101719	ABHISHEK HAZARI	
448.	101723	NARENDRA SINGH DAMAR	
449.	101724	VIJAY MAVI	
450.	101729	ANURADHA RATHORE	
451.	101740	YASH BIJORIYA	
452.	101742	KAVITA CHAUDHARY	
453.	101747	DASHRATH DHAKED	
454.	101768	MOHINI VERMA	
455.	101771	SHIV PRATAP SINGH	
456.	101772	HRIDESH YADAV	
457.	101773	VANDANA KIRADE	
458.	101776	ABHIRUCHI KANAUIYA	
459.	101779	KUNAL KHERADIYA	
460.	101780	KAMINI BILAWAL	
461.	101781	PARVATI CHANGOD	
462.	101783	SATISH KUMAR BURDE	
463.	101785	KAILASH SASTYA	
464.	101789	DEEPIKA JHALA	



S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
465.	101799	NITIN KUMAR CHOUDHARY	
466.	101801	MAHENDRA KUMAR YADAV	
467.	101803	ABHINAV MISHRA	
468.	101807	POORTI TIWARI	
469.	101809	SARITA SHEKHAWAT	
470.	101813	SANTOSH MANDLOI	
471.	101814	AJAY SURYAVANSHI	
472.	101815	MANMOHAN BAGHEL	
473.	101817	SHAIENDRA SINGH NARWARIA	
474.	101818	RADHA CHAUHAN	
475.	101822	SANJAY SINGH KALESH	
476.	101829	AKASH GUPTA	
477.	101832	YASHWANT RATHORE	
478.	101837	KAILASH CHAUHAN	
479.	101842	KULDEEP SINGH BHADORIA	
480.	101843	ANIMESHA GARPAL	
481.	101847	JAYENDRA KUDOPE	
482.	101849	RADHA DAWAR	
483.	101864	REENA SOLANKI	
484.	101865	RAVISHARAN SINGH	
485.	101866	SHAILESH VERMA	
486.	101868	YOGESH KUMAR YADAV	
487.	101869	PUNEET GEHLOD	
488.	101873	SHIV SHANKAR SHUKLA	
489.	101875	SACHIN SITOLE	
490.	101881	KALPNA SHARMA	
491.	101888	MALAY MAHANT	
492.	101890	RAJESH LILHARE	
493.	101897	SHAIENDRA DAWAR	
494.	101898	AJAY CHOUHAN	
495.	101900	ASHISH KUMAR AWASTHI	
496.	101902	AJAY KUMAR OJHA	
497.	101905	NILAY SINGH	
498.	101908	VIKRAM CHHIRAULYA	
499.	101912	RAJKISHOR SINGH GURJAR	
500.	101914	SHYAM BABU	
501.	101915	OMPRAKASH PATIDAR	
502.	101920	VARSHA BHABAR	
503.	101921	NEHA JARARIYA	
504.	101929	REENA KIRADE	

S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
505.	101934	ALOK PANDEY	
506.	101936	KRATIKA MOHTA	
507.	101942	YOUVRAJ SINGH CHOUHAN	
508.	101945	NAVAJ UDDIN	
509.	101959	RAVIKANT BALOTHIYA	
510.	101961	ANAMIKA GAUTAM	
511.	101972	MUKESH PALIWAL	
512.	101981	GAURAV SINGH MEENA	
513.	101992	JITENDRA KUMAR MEHRAM	
514.	101994	AARTI JOGE	
515.	101997	DR.PUNEET SHUKLA	
516.	101999	VIKASH KIRAD	
517.	102009	SACHIN SAXENA	
518.	102012	MONIKA SINGH	
519.	102023	KIRAN YADAV	
520.	102026	ANJU SINGH PORTE	
521.	102029	PRAHLAD DADING	
522.	102044	HEMLATA SUNHARE	
523.	102047	SHELENDRA BHIL	
524.	102048	SHARMILA MEENA	
525.	102055	SUNEEL KUMAR WARKADE	
526.	102060	HIMANI YADAV	
527.	102064	PARUL SHARMA	
528.	102070	PARMILA THAKUR	
529.	102072	SATENDRA SAUNDHIYA	
530.	102077	JYOTI THOKE	
531.	102078	OM PRAKASH PATEL	
532.	102082	PRAVESH DAKSH	
533.	102087	SRISHTI GIRWAL	
534.	102090	VINEET KUMAR PANDEY	
535.	102091	AKHILESHWAR SINGH	
536.	102096	OMPRAKASH GEHLOT	
537.	102101	PAWAN KUMAR JAGNERY	
538.	102105	AAKANKSHA MARAVI	
539.	102110	SUNEEL KUMAR UIKEY	
540.	102117	NIRMALA ARODA	
541.	102118	SONAM SHARMA	
542.	102120	VIJENDRA SINGH	
543.	102125	AMBUJ TRIPATHI	
544.	102131	PUSHPARAJ SINGH CHOUHAN	

S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
545.	102134	SHALU GANGELE	
546.	102136	AMIT PRASAD AKHANDE	
547.	102138	SHRAWAN KAUL	
548.	102139	RAHUL GUPTA	
549.	102144	SURENDRA SINGH MOURYA	
550.	102146	AADITYA RAJ CHAUHAN	
551.	102148	NEHAA SHAH	
552.	102150	MASTRAM SINGH RATHORE	
553.	102156	MONIKA BAGHEL	
554.	102157	YOGESH KUMAR BARAIYA	
555.	102160	DEEPTI KATROLIYA	
556.	102162	DEEPAK MANJHY	
557.	102169	SAURABH TOMAR	
558.	102175	YADVENDRA KUMAR TIWARI	
559.	102186	SHEELA BAHDKARE	
560.	102187	VIVEK PATIDAR	
561.	102190	SHRASTI BHADAURIA	
562.	102191	PRIYANKA GUVATIYA	
563.	102194	NAMAN UPADHYAYA	
564.	102204	ANJANA BUNDELA	
565.	102206	NILESH DAMOR	
566.	102218	NAND KISHOR DAILBAR	
567.	102219	SATYA PRAKASH MISHRA	
568.	102220	PRASANNJEET DONGRE	
569.	102223	AMRATA JAIN	
570.	102231	ANURAG TIWARI	
571.	102248	CHANCHAL THAKRE	
572.	102251	GHANSHYAM DHANGAR	
573.	102256	RAJ KUMAR RAI	
574.	102257	SUNIL RANA	
575.	102261	KIRAN AHIRWAR	
576.	102264	MANEESH KUMAR SOLANKI	
577.	102268	ASHOK NAGLE	
578.	102269	VIKAS KUMAR SINGH	
579.	102272	SEEMA CHOUKSEY	
580.	102273	MUKESH MORY	
581.	102276	BHAWAR SINGH CHOUHAN	
582.	102277	YASHWANT SHAREN SINGH UIKEY	
583.	102282	AUGNEESH GOYAL	
584.	102290	SANDEEP KUMAR DAWAR	

S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
585.	102309	SHANTILAL CHANDRAWANSHI	
586.	102315	SANJEEV KUMAR TIWARI	
587.	102316	HEMLATA MUVEL	
588.	102317	HEMANT KUMAR ARYA	
589.	102324	YOGITA MUKATI	
590.	102325	SANDEEP MEENA	
591.	102328	RAVINDRA DEWADA	
592.	102338	PRAVEEN KUMAR SONI	
593.	102339	ARTI GARWAL	
594.	102340	PURAN KUMAR JHA	
595.	102341	ISHANK DHAKAD	
596.	102344	ABHISHEK KHATRI	
597.	102347	BHUPENDRA MANDLOI	
598.	102349	RAJESH KUMAR WARKADE	
599.	102355	NAMRATA SODHIYA	
600.	102358	ANSHU JAWALA	
601.	102360	DEEPAK KUMAR PALECHA	
602.	102368	NANDRAM CHOUHAN	
603.	102369	GABBU DAWAR	
604.	102372	BARKHA GOUD	
605.	102377	SONIYA THAKUR	
606.	102379	MONIKA SONI	
607.	102381	SANSKRITA JOSHI	
608.	102382	ASHWIN KHADIA	
609.	102390	RAMBHAROSH CHOURE	
610.	102391	NEHA JAISWAL	
611.	102394	PRAMOD GOUR	
612.	102395	MAHESH BAGHEL	
613.	102399	JYOTI SHIVHARE	
614.	102403	RAMCHARAN PRAJAPATI	
615.	102406	RAKESH PARMAR	
616.	102411	NARENDRA KUMAR GOUTAM	
617.	102416	SANDHYA SARYAM	
618.	102418	SUBHASHINI JAIN	
619.	102420	ADITYA KUMAR TIWARI	
620.	102423	MANISH BHAWAR	
621.	102426	BALRAM KHOTE	
622.	102432	BHARAT PANDRAM	
623.	102436	AKHLESH KUMAR UPADHAYAY	
624.	102437	ARPIT KUMAR GUPTA	

S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
625.	102438	NIDHI JAIN	
626.	102445	MANOJ GARWAL	
627.	102446	NARENDRA KUMAR MORCHHALE	
628.	102447	LOKESH AHUJA	
629.	102458	RAKESH KUMAR RAJAK	
630.	102460	ANTIM TAGORE	
631.	102466	MAMTA VASNIK	
632.	102467	ANITA PARMAR	
633.	102469	SURENDRA BHABHAR	
634.	102475	JAISHREE RAI	
635.	102478	PAVAN SHARMA	
636.	102479	YESHWIN THAKUR	
637.	102487	ASHISH LOHRA	
638.	102488	KAMLESH GOND	
639.	102490	NEHA GOYAL	
640.	102492	ALOK KUMAR JAIN	
641.	102501	SIDDHANT SINGH SINGLA	
642.	102505	PUNNU SINGH PARASTEY	
643.	102507	SANDEEP SHIVA	
644.	102508	LALJI MARAVI	
645.	102511	PRITIBALA SASTE	
646.	102512	PRAGYA GEETE	
647.	102516	SUMAN BATHAM	
648.	102517	DEVENDRA KATARE	
649.	102518	ABHISHEK PANDEY	
650.	102521	SONAM JHARWADE	
651.	102525	LAKHAN BHANWAR	
652.	102526	PINTOO KUMAR BAGHEL	
653.	102529	SAPNA KUMARI SHARMA	
654.	102530	KU SAKSHI GUPTA	
655.	102531	SHANTILAL BADOLE	
656.	102536	SWATI JASHNANI	
657.	102537	KRISHNA PRATAP SINGH CHOUDHARY	
658.	102540	MUKESH KUMAR PATLE	
659.	102546	GIREESH MARKO	
660.	102549	HARSHAL PANCHOLI	
661.	102554	ABHILASH KUMAR BHALAVI	
662.	102558	REENA KUMARIYA	
663.	102564	MAHENDRA SINGH VAISH	
664.	102571	RAVI BARELIA	

S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
665.	102572	VIKAS THAKUR	
666.	102576	HEMLATA SHARMA	
667.	102577	PRAVEEN KUMAR MALVIYA	
668.	102580	SHOBHANA THAKUR	
669.	102582	BHARTI YADAV	
670.	102588	SUNIL PIDIYAR	
671.	102595	JYOTI KHATARKER	
672.	102596	VIJAY SHANKAR GUPTA	
673.	102598	EKTA JAISWAL	
674.	102607	DEVSHRI NAY	
675.	102613	KAILALSH JAMOD	
676.	102616	LOVEKESH AGRAWAL	
677.	102619	DIGPAL SINGH PAWAR	
678.	102628	SANTUSHTI PAL	
679.	102633	ARTEE YADAV	
680.	102637	AMARJEET CHOUDHARY	
681.	102642	JYOTIBALA AWASYA	
682.	102645	SHAIENDRA SINGH BUNDELA	
683.	102651	MILIND BISEN	
684.	102654	NEHA PATIDAR	
685.	102655	SHIVANGI RAJANI	
686.	102660	HARISH CHANDRA CHOUHAN	
687.	102664	GOURAV SAIYAM	
688.	102671	YASHPAL MUJALDA	
689.	102674	PRIYANKA BAMNIYA	
690.	102680	SANDEEP KUMAR SHAKYA	
691.	102683	NIKHILESH RAKESHIYA	
692.	102684	SUPRIYA BISEN	
693.	102686	SATISH CHANDORE	
694.	102692	ASHISH JAIN	
695.	102694	PRADEEP KUMAR MONGRE	
696.	102699	RAVI PRAKASH KOL	
697.	102701	ADITYA GULATI	
698.	102704	PRIYANSHI BHANWAR	
699.	102706	SHWETA VASKALE	
700.	102708	CHETNA PATIL	
701.	102717	KULBHOOSHAN SHARMA	
702.	102718	KARMENDRA SAWALE	
703.	102720	JYOTI SINGH	
704.	102726	DINESH KUMAR SONARTIYA	

S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
705.	102728	KAMLESH PATIDAR	
706.	102729	ANAND JAISWAL	
707.	102731	AMIT SOLANKI	
708.	102732	SATYENDRA SINGH YADAV	
709.	102733	RAJENDRA RATHORE	
710.	102736	ABHISHEK BEOHAR	
711.	102739	DWIVEDI SUMAN	
712.	102740	RAKESH KUMAR AHAKHE	
713.	102746	REKHA KAUSHAL	
714.	102758	NITU GYANI	
715.	102763	KAMLESH BAMNIYA	
716.	102764	VINOD MARKAM	
717.	102769	MANISH BAURASI	
718.	102771	ALOK SHRIVASTAVA	
719.	102776	PINKY HINDUJA	
720.	102779	PRIYA DEHARIYA	
721.	102782	SANDEEP WASKALE	
722.	102787	PRADEEP RAWAT	
723.	102789	HIMANI RATHOD	
724.	102792	VIKAS SINGH	
725.	102798	AJIT PATEL	
726.	102801	SHABERA ANSARI	
727.	102807	ANKITA PANDYA	
728.	102808	PANKAJ DASONDHI	
729.	102813	LOKENDRA SINGH THAKUR	
730.	102814	JITENDRA SINGH GEHLOT	
731.	102815	YASHVANT SINGH	
732.	102818	RITU AGRAWAL	
733.	102821	NAVIN KUMAR	
734.	102826	DURGADAS DAHAYAT	
735.	102828	AKASH NIKAM	
736.	102834	MANOJ HAROD	
737.	102837	TRAPTI TAK	
738.	102842	ANJULI DHURWE	
739.	102843	UMA DANGI	
740.	102854	MILIND KUMAR BHIVGADEY	
741.	102856	RAMSEVAK MEENA	
742.	102869	BHAVNA BARODIA	
743.	102871	KULDEEP BAIS	
744.	102875	VISHAKHA DESHMUKH	

S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
745.	102877	SHIVANI SHRIVASTAVA	
746.	102879	ANURADHA SAKWAR	
747.	102880	ATUL UPADHYAY	
748.	102881	MANEESH KUMAR JAIN	
749.	102883	BHEEM SINGH MASANIYA	
750.	102885	NIRMALA SHARMA	
751.	102887	RAJESH PALIYA	
752.	102889	PINKEY RAGHUWANSHI	
753.	102893	ABHISHEK TARE	
754.	102902	REENA CHOUHAN	
755.	102903	ANIL RAGHUWANSHI	
756.	102908	PRATIBHA BHALAVI	
757.	102911	POORVI JAIN	
758.	102912	POOJA ASATI	
759.	102913	SAURABH KANASE	
760.	102919	DURGESH VERMA	
761.	102922	KANDARP BHATT	
762.	102924	RENU GOME	
763.	102931	MANOJ CHOUHAN	
764.	102932	NIDHI CHOUDHARY	
765.	102937	SUNIL BAGHEL	
766.	102938	SUDEEP PATIDAR	
767.	102943	VARSHA SOLANKI	
768.	102949	GAJENDRA SINGH YADAV	
769.	102953	SATYAM CHATURVEDI	
770.	102955	SANDEEP KUMAR NIGWAL	
771.	102956	DEVENDRA YADAV	
772.	102958	AJAY KUMAR GUPTA	
773.	102960	PARSHRAM SHARMA	
774.	102988	AJAY SALVIYA	
775.	102994	AKSHAY VISHWAKARMA	
776.	102995	VIKAS AGRAWAL	
777.	102997	NARENDRA KUMAR GOSWAMI	
778.	103002	AFEESAR SINGH	
779.	103010	NARAYAN SINGH RAGHUWANSHI	
780.	103011	DEVYANI BAMNIYA	
781.	103013	SAPNA MALVIYA	
782.	103014	KHAGENDRA SAGAR	
783.	103015	DR DEEPTI GUPTA	
784.	103016	TARUN SHARMA	



S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
785.	103019	DINESH MEENA	
786.	103022	SURESH PATEL	
787.	103023	UMESH KUMAR YADAV	
788.	103027	SNEHA SOLANKI	
789.	103031	RANJANA PATIDAR	
790.	103033	SUNIL PANWAR	
791.	103035	GOVIL MARAVI	
792.	103039	RATNA UIKEY	
793.	103042	AASHISH KUMAR JAIN	
794.	103043	YUVRAJ SINGH MUVEL	
795.	103056	SHALINI KANCHKAR	
796.	103071	ASHISH KUMAR SHILPI	
797.	103076	JITENDRA KUMAR THAKUR	
798.	103078	RAVI RAI	
799.	103080	GANESH MUKATI	
800.	103082	NIKITA GOYAL	
801.	103083	VEENA GUPTA	
802.	103086	PRAKASH RANGSHAHI	
803.	103089	ASHWIN VASUNIYA	
804.	103093	AJAY KUMAR YADAV	
805.	103098	NAMITA PATEL	
806.	103099	SANGEETA KAG	
807.	103100	TEERTHRAJ BHARDWAJ	
808.	103111	MANOJ BAGOLE	
809.	103114	ANIL PATIDAR	
810.	103128	SHARAD SONI	
811.	103131	IBREEN BANO	
812.	103137	AMIT YADAV	
813.	103138	GANISH PRASAD CHANDRAVANSHI	
814.	103139	PANKAJ KUMAR JAIN	
815.	103146	LEKHRAM DARSIMA	
816.	103152	GAURAV NIRANKARI	
817.	103155	SUNITA DAWAR	
818.	103156	HITESH YADAV	
819.	103166	ANJALI AGRAWAL	
820.	103168	SHANKHDHAR TRIPATHI	
821.	103169	SHANTILAL CHOUHAN	
822.	103171	VANDANA RAJPUT	
823.	103172	OMPAL SINGH BHADOURIYA	

S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
824.	103176	LATA CHOUHAN	
825.	103187	PRAVEEN OHARIYA	
826.	103193	RAMSINGH DAMOR	
827.	103194	KHUSHBOO AGRAWAL	
828.	103199	PUSHRAJ TOPPO	
829.	103204	ASHOK KUMAR CHOUHAN	
830.	103210	ASHOK KUMAR MISHRA	
831.	103218	JITENDRA KUMAR PATEL	
832.	103221	MAHENDRA CHOUHAN	
833.	103227	KHUSHWANT DAMAR	
834.	103236	LALIT KUMAR RATHORE	
835.	103241	ATUL LASHKARI	
836.	103247	RADHESHYAM SOLANKI	
837.	103250	VIJAYA BHILALA	
838.	103256	BRIJ BIHARI LAL SHRIVASTAVA	
839.	103261	AVINASH CHOUHAN	
840.	103265	DEEPIKA MESHARAM	
841.	103268	JAY PARIHAR	
842.	103281	RAVI SHARMA	
843.	103288	JYOTI JATAV	
844.	103289	AKHILESH KUSHRAM	
845.	103297	HANSA PARMAR	
846.	103299	HEMLATA BILWAL	
847.	103301	KUMAR GAURAV VYAS	
848.	103303	ATUL DHANGAR	
849.	103306	RAJKUMAR NAGORIYA	
850.	103307	SANTOSH KUMAR SOLANKI	
851.	103308	RAHUL KUMAR KHARE	
852.	103310	SUNIL KUMAR SAITE	
853.	103315	MONIKA JHARIYA	
854.	103318	ASHA CHOUHAN	
855.	103320	VINOD KUMAR LEVE	
856.	103324	YASHPAL KUMBHKAR	
857.	103332	AJAY CHOUDHARY	
858.	103339	SAWAN SAHU	
859.	103340	DINESH KUMAR CHANDEL	
860.	103342	RAMKRISHNA BAMNIYA	
861.	103346	MUKESH NIGAM	
862.	103347	SACHIN BHILWARE	
863.	103352	ARCHNA TRIPATHI	

S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
864.	103356	RAJENDRA MHERA	
865.	103362	MOHAMMAD YUSUF KHAN	
866.	103365	ANJALI RAI	
867.	103367	PRAHLAD DODARIYA	
868.	103371	SHELLBALA BHARGAVA	
869.	103372	RAJKUMAR BAGRI	
870.	103377	JEEWAN LAL MOGHI	
871.	103382	RAJESH SANODIYA	
872.	103385	SONIKA SINGH	
873.	103388	GABBAR SINGH PARMAR	
874.	103394	RACHNA PARMAR	
875.	103395	DEEPI TIWARI	
876.	103397	RAVINDRA SINGH CHOUHAN	
877.	103401	SANJAY CHOUHAN	
878.	103404	BHAGAT SINGH CHOUHAN	
879.	103412	ASHISH KUMAR DWIVEDI	
880.	103418	SONAM JAIN	
881.	103419	EKTA SOLANKI	
882.	103420	CHANDRA SHEKHAR VYAS	
883.	103429	DHAMMADEEP BHAGAT	
884.	103433	RAMESHWAR SINGH	
885.	103436	DHARMENDRA YADAV	
886.	103441	AKANKSHA SINGH	
887.	103442	RAHUL KUMAR SINGH THAKUR	
888.	103443	MAHESH BHABOR	
889.	103445	SUNIL VERMA	
890.	103447	AVDHESH YADAV	
891.	103448	JAGDISH ACHALE	
892.	103454	MAMTA CHOUDHARY	
893.	103471	BHAWNA KUMRE	
894.	103473	RAKESH KUMAR YADAV	
895.	103484	ASHOK KUMAR GAUTAM	
896.	103491	SANTOSH KUMAR	
897.	103496	KARUNA DANDOTIYA	
898.	103498	MANISH ALAWA	
899.	103504	ABHIYANK CHOUDHARY	
900.	103520	PUSHPA PRAJAPAT	
901.	103525	MAHESH MANDLOI	
902.	103528	BHAGYASHALI SINGH	
903.	103531	JYOTI KUMBHARE	

S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
904.	103536	HIMANI MISHRA	
905.	103540	ARVIND SINGH	
906.	103544	SHILPA JAIN	
907.	103548	SOURABH DWIVEDI	
908.	103553	CHENRAM PANWAR	
909.	103562	NEELAM SETHIYA	
910.	103563	SUNITA RATHORE	
911.	103580	MARISHA SHINDE	
912.	103586	NIMESH DESHMUKH	
913.	103594	PANKAJ DAYROTIA	
914.	103604	SHIKHA SONI	
915.	103621	BADRILAL PANWAR	
916.	103622	NITIN KUMAR CHHAREE	
917.	103626	ABHILASH MERA VI	
918.	103627	SONAM CHOURE	
919.	103630	BARIA SUMIT	
920.	103632	MANMOD SANODIYA	
921.	103634	ASHISH KOTANGLE	
922.	103636	VISHAL KUMAR YADAV	
923.	103638	MANOJ BAMNIYA	
924.	103642	AKHILESH KUMAR PANDEY	
925.	103644	MANOJ KUMAR SONGARA	
926.	103647	NARPAT SINGH KALESH	
927.	103649	MANOJ BAGHEL	
928.	103653	VIVEK KUMAR SHARMA	
929.	103654	BHAVANA PATNE	
930.	103660	DEEPAK CHOUHAN	
931.	103664	VINEET KASERA	
932.	103668	NISHA BHARDWAJ	
933.	103671	RAHUL DEV JAGDHANE	
934.	103675	MANDEEP DAWAR	
935.	103686	CHARU JAIN	
936.	103690	ROOPAL TYAGI	
937.	103692	KULDEEP SINGH CHOUHAN	
938.	103693	ALPESH KUMAR BARIYA	
939.	103694	BRAJPALSINGH MANDLOI	
940.	103695	JANKILAL CHARPOTA	
941.	103696	PRAKASH DODWE	
942.	103697	NEELAM TIWARI	
943.	103701	ASHWINI RANPISE	

S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
944.	103707	DEEKSHA JAIN	
945.	103709	ARUNENDRA VISHWAKARMA	
946.	103711	PALLAVI LILOTIA	
947.	103718	SHAIENDRA KUMAR JAIN	
948.	103723	PREETI SANGHVI	
949.	103727	RAM KUMAR SHARMA	
950.	103729	KAILASH CHOUHAN	
951.	103730	DEEPTI MANJHI	
952.	103731	CHANDRA SHEKHAR SONIS	
953.	103736	MANOJ PAL SINGH	
954.	103744	POORNIMA PARTE	
955.	103745	POOJA MALAKAR	
956.	103755	KULDEEP DAMOR	
957.	103758	VANDANA DHUMKETI	
958.	103761	RAJNI VERMA	
959.	103763	KESHURAM JANGDE	
960.	103771	DIVYA PATEL	
961.	103776	JAIRAJ SINGH SOLANKI	
962.	103777	SHAIENDRA GOSWAMI	
963.	103778	MAYAVATI MARAVI	
964.	103781	SONAL SIDAM	
965.	103782	DINESH MISHRA	
966.	103787	KAMRU HATILE	
967.	103794	PRAVEEN SINGH CHANGER	
968.	103795	RUPALI TEKADE	
969.	103803	PREETI AKHARE	
970.	103806	RAKESH DINDOR	
971.	103807	ASEEM MISHRA	
972.	103809	JWELIKA VYAS	
973.	103810	VIBHA JAISWAL	
974.	103822	NUPUR JHA	
975.	103823	HEMENDRA SINGH RATHORE	
976.	103825	SURESH PATEL	
977.	103830	MUKESH KUMAR JAT	
978.	103832	VISHAL GOURH	
979.	103833	SONAM BATHRE	
980.	103835	CHETAN KUMAR NAGAR	
981.	103836	SURESH DEVRA	
982.	103837	MANAKMANI KUMAWAT	
983.	103843	SHILPA DUDVE	

S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
984.	103844	DINESH BARGALE	
985.	103846	SAPNA YADAV	
986.	103850	ARUN KANT PRAJAPATI	
987.	103851	TWINKLE VERMA	
988.	103856	JITENDRA ALAWA	
989.	103858	ASHIYA BEGUM KHAN	
990.	103876	RAVIN AWASYA	
991.	103878	PREETI NAGENDRA	
992.	103879	DEEPAK MANDLOI	
993.	103880	SANTOSH KUMAR YADUWANSHI	
994.	103884	KIRTI BAGHEL	
995.	103887	SHIVPRATAP SINGH BAGHEL	
996.	103897	HEMANT AGRAWAL	
997.	103912	CHETNA GEHLOD	
998.	103915	LEENA UIKEY	
999.	103921	GYANESHWAR KOLHE	
1000.	103924	AGAM JAIN	
1001.	103925	VARSHA PATIDAR	
1002.	103933	SACHIN RAI	
1003.	103937	PRASHANT THOOL	
1004.	103939	MANISHA YADAV	
1005.	103944	DURGA DAWAR	
1006.	103949	RASHMI CHANDANI	
1007.	103954	YOGESH PIPLAD	
1008.	103957	RAHUL TEKAM	
1009.	103966	VANDNA YADAV	
1010.	103968	SONU PARMAR	
1011.	103970	CHANDRA KUNWAR SINGH	
1012.	103974	ARTI KUJUR	
1013.	103975	DASHARATH SINGH KANWAR	
1014.	103992	AJAY PARAS	
1015.	103998	PRIYANKA CHOUHAN	
1016.	104002	SONALI MAKWANA	
1017.	104003	BHARTI DANGI	
1018.	104012	RAKHI RATHORE	
1019.	104016	YOGESH MESHRAM	
1020.	104026	RAJESH KUMAR DEVDA	
1021.	104028	APOORVA CHAUDHARY	
1022.	104029	AKHILESH SUNAIYA	
1023.	104035	MOUSMI KEWAT	

S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
1024.	104037	PRIYANKA JAIN	
1025.	104042	NITESH DAMOR	
1026.	104048	INDER SINGH CHANGOD	
1027.	104057	CHANDRAPAL SINGH WASKEL	
1028.	104059	SANDEEP MEENA	
1029.	104068	JEEVAN KUMAR DETHALIYA	
1030.	104075	SACHIN ROMADE	
1031.	104076	JAYA VASAVA	
1032.	104083	PREETI BALA JAISWAL	
1033.	104086	KAMAL DODIYAR	
1034.	104112	DEVESH KUMAR SOLANKI	
1035.	104129	DIVYANK SINGH	
1036.	104135	PIYUSH AGRAWAL	
1037.	104141	NEERAJ TAKHARYA	
1038.	104158	SHEETAL BHALAVI	
1039.	104165	KALPANA DHURWAY	
1040.	104175	PRIYANKA SHARMA	
1041.	104181	SUNIL KUMAR SHARMA	
1042.	104183	AKANKSHA SINGH TOMAR	
1043.	104193	RAVI MALVIYA	
1044.	104203	SEEMA MISHRA	
1045.	104215	ARUN KUMAR NAGLE	
1046.	104229	RAMKISHOR JHARBADE	
1047.	104231	POONAM YADAV	
1048.	104246	SHILPI DIWAKER	
1049.	104247	BALRAM DHAKAR	
1050.	104249	DEEPALI TAYDAY	
1051.	104257	KAMLESH AHIRWAR	
1052.	104261	VIMLESH KUMAR CHOUDHARY	
1053.	104274	RAJENDRA SINGH KANESH	
1054.	104276	PAWAN KUMAR BAGDE	
1055.	104277	BALWANT SINGH KURMI	
1056.	104278	NEETU SINGH GOND	
1057.	104287	ANTIMA SAMADHIYA	
1058.	104293	SHILPA KAWRETI	
1059.	104302	CHITRANSHI DAMOR	
1060.	104331	GOPAL SINGH JATAV	
1061.	104333	RAJENDRA SINGH DANGI	
1062.	104339	DEVRAJ NAGINA	
1063.	104341	CHANDRA SHEKHAR PANDEY	

S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
1064.	104360	REENA YADAV	
1065.	104361	RISHI NARAYAN	
1066.	104367	VARSHA GOUR	
1067.	104374	ASHOK MEENA	
1068.	104375	SEEMA PATERIYA	
1069.	104377	SMT. REETA DAHERIYA	
1070.	104379	GEETA BISEN	
1071.	104380	DEEPIKA PAW	
1072.	104381	YAJUVENDRA WAGHMARE	
1073.	104383	MUBIN MOHAMMAD	
1074.	104385	TS RAGHAVENDRA	
1075.	104397	PRAVEEN KUMAR SALLAM	
1076.	104422	UMESH KUMAR PANDEY	
1077.	104427	SHIKHA YADAV	
1078.	104437	SUNIL ARYA	
1079.	104439	SHIVA SHRIVASTAVA	
1080.	104442	SHASHANK SINGH GURJAR	
1081.	104443	HIBA KHANAM	
1082.	104470	DEEPMALA AHKEY	
1083.	104471	JEEVAN SINGH RAJAK	
1084.	104485	SANJAY IRPACHI	
1085.	104487	NEHA GOUR	
1086.	104495	GUNJAN SRIVASTAVA	
1087.	104531	ABHA DUBEY	
1088.	104539	MANISH RAJ	
1089.	104541	JITENDRA KUMAR PATEL	
1090.	104542	MOHD SHUAIB SHAIKH	
1091.	104567	RAM BHAGAT KUSHWAHA	
1092.	104574	NAVNEET PANDEY	
1093.	104575	SATISH SAHU	
1094.	104596	PREM NARAYAN YADAV	
1095.	104597	CHANDRABHAN CHOUHAN	
1096.	104612	JEETENDRA KUMAR AMBULKAR	
1097.	104616	BHARTI TIWARI	
1098.	104634	VINEET KUMAR	
1099.	104635	REENA SINGH RATHOUR	
1100.	104638	SANJAY SOMKUWAR	
1101.	104656	PRIYANKA RAI	
1102.	104658	VISHNU PRASAD YADAV	
1103.	104673	REKHA SINGH	



S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
1104.	104675	GAMAD RAVINDRA	
1105.	104679	DEEPAK DIGARSE	
1106.	104684	MAHENDRA CHANDERIYA	
1107.	104686	VINITA AKHAND	
1108.	104687	CHHAVIKANT WAGHMARE	
1109.	104688	TARUVAR PRASAD PATIDAR	
1110.	104696	ARPAN YADUVANSHI	
1111.	104698	PREETI SAHU	
1112.	104699	ALOK TIWARI	
1113.	104705	VIRENDRA SINGH	
1114.	104716	DEVENDRA UPADHYAY	
1115.	104725	PREETI RANI CHOURASIA	
1116.	104726	RAJ KUMAR ROY	
1117.	104731	NEELESH PATEL	
1118.	104753	ESHA BALMIK	
1119.	104759	BANDU SURYAWANSHI	
1120.	104760	RAJU KONOJE	
1121.	104762	EKTA THAKUR	
1122.	104766	SURENDRA KUMAR AHIRWAR	
1123.	104769	SUNITA CHOUHAN	
1124.	104770	ANURAG PRAKASH	
1125.	104774	AJEET SINGH GURJAR	
1126.	104788	SARITA MEENA	
1127.	104790	KALPANA KHATIK	
1128.	104806	RAVISHANKAR SINGH	
1129.	104813	MAMTA BHATTACHARYA	
1130.	104815	KUMARI MAUSAM	
1131.	104822	CHANDRAKISHORE BAGHMARE	
1132.	104825	DR ANSHUMAN SINGH	
1133.	104827	RITU SALWE	
1134.	104830	MOTILAL AHIRWAR	
1135.	104849	SHANTOSH SHANKAR CHOUDHARY	
1136.	104852	SURESH KUMAR PATEL	
1137.	104855	GANESH KUMAR	
1138.	104857	AJEET KUMAR TIWARI	
1139.	104862	SUREKHA YADAV	
1140.	104886	HIRENDRA UIEKEY	
1141.	104890	ANJU LODHI	
1142.	104892	HARISH CHIRONJE	

S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
1143.	104894	VANDNA KAITHAL	
1144.	104914	SIMANT SAXENA	
1145.	104921	PURUSHOTTAM SINGH	
1146.	104944	BHOLA RAM BAMNE	
1147.	104948	MANISHA WASKALE	
1148.	104950	DEVENDRA PRATAP SINGH	
1149.	104957	ANAND PRASAD JAT	
1150.	104965	MADHUR MISHRA	
1151.	104967	CHANDRAKANT PATIDAR	
1152.	104975	ABHISHEK SINGH	
1153.	104989	KAILASH KUMAR THAKRE	
1154.	104999	BEER SINGH RAJPUT	
1155.	105018	SUCHITRA THAKUR	
1156.	105023	MOHAN LAL MALVIYA	
1157.	105032	GOVIND ATHIYA	
1158.	105038	KALLU PATEL	
1159.	105041	KAVITA SHYAM	
1160.	105046	LOKENDRA GUPTA	
1161.	105047	MANISH PRATAP SINGH	
1162.	105075	YASHWARDHAN SINGH	
1163.	105076	VIKAS KUMAR ANAND	
1164.	105078	SATISH KUMAR PATEL	
1165.	105082	PRIYANKA PATEL	
1166.	105084	KIRTI DEHARIYA	
1167.	105095	SANJEEV KUMAR	
1168.	105099	URMILA CHAUDHARY	
1169.	105109	APARNA VISHWAKARMA	
1170.	105116	MUMAL BOHAT	
1171.	105121	RABEENDRA KUMAR PATEL	
1172.	105124	TRAPTI PATIL	
1173.	105134	CHANDAR SINGH	
1174.	105136	KIMI BHAWARKER	
1175.	105149	RENU DAMOR	
1176.	105155	SUSHMA SHELU	
1177.	105156	MEGHA TALWALKAR	
1178.	105158	HARISHANKAR SINGH KANSANA	
1179.	105162	GARIMA SINGH	
1180.	105176	AMIT KUMAR RINAHITE	
1181.	105194	CHANDRABHAN BHALAVI	
1182.	105204	BRIJENDRA SINGH	

S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
1183.	105206	SHYAM DHURVE	
1184.	105212	RAHUL WASNIK	
1185.	105223	RAVI SHANKAR CHATURVEDI	
1186.	105226	NAGENDRA PRATAP TIWARI	
1187.	105227	PRIYANKA RANI CHAURASIA	
1188.	105233	VIJAY SINGH	
1189.	105237	SANGAM PATLE	
1190.	105243	VINOD KUMAR MERAVI	
1191.	105249	MANOJ KUMAR PRAJAPATI	
1192.	105254	MOHIT GANDHI	
1193.	105262	OMKAR KOKODE	
1194.	105263	AKANT RAHANGDALE	
1195.	105286	INDU TANDEKAR	
1196.	105291	PUSHKAR NATH PATEL	
1197.	105295	ROSHNI KORI	
1198.	105297	VRAJENDRA SINGH BHATI	
1199.	105303	POONAM DUBEY	
1200.	105307	ANURAG UIKEY	
1201.	105310	RAKSHA MARAVI	
1202.	105323	SONALI NAREDA	
1203.	105337	KARUNA SAHU	
1204.	105341	PRATIPAL SINGH MAHOBIYA	
1205.	105353	AJAY MISHRA	
1206.	105356	SONALI DUBEY	
1207.	105357	MANJU CHOUHAN	
1208.	105364	ARADHANA PATEL	
1209.	105366	SHRUTIKA RAI	
1210.	105376	JEET SINGH DHURWEY	
1211.	105379	SHRIRAM ZANZAWAT	
1212.	105382	SUNAYANA MAHAJAN	
1213.	105387	JABIR KHAN	
1214.	105388	NAMAN JAIN	
1215.	105392	ARCHANA GUPTA	
1216.	105398	SHANKAR SATANKAR	
1217.	105400	RAGHUNATH PRASAD TUMRALI	
1218.	105402	RACHNA SHARMA	
1219.	105409	NIRAJ MEGHWAL	
1220.	105423	RAVIKANT CHOUDHARI	
1221.	105425	BHAGVATI PRASAD JONWAR	
1222.	105427	RAJAT SONI	

S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
1223.	105429	OM PRAKASH MALVIYA	
1224.	105432	RUHI BAVEJA	
1225.	105441	VIRENDRA VERMA	
1226.	105442	RAJEEV KUMAR	
1227.	105443	SATISH MALVIYA	
1228.	105444	PRABHA GHURE	
1229.	105446	PREETI YADAV	
1230.	105448	DURGESH ARMO	
1231.	105458	SHWETA SRIVASTAVA	
1232.	105460	BHAVISHYA BHASKAR	
1233.	105464	DR RICHA SAXENA	
1234.	105474	JAGDISH SINGH BHIL	
1235.	105477	ANKITA TRIPATHI	
1236.	105485	DHARAMRAJ BAGHEL	
1237.	105486	DREAMY AGRAWAL	
1238.	105494	SHUBHAM JAIN	
1239.	105529	GHANSHYAM CHOKSEY	
1240.	105530	PRAKHER JAMNE	
1241.	105534	ARCHANA JAGET	
1242.	105549	PUSHPENDRA DWIVEDI	
1243.	105550	SACHIN PRASANNA SINGH	
1244.	105551	SUDHIR KUMAR BARKHANE	
1245.	105561	PRAGATI VERMA	
1246.	105569	HEMANT KUMAR NIRAPURE	
1247.	105574	JEETENDRA KUMAR SONI	
1248.	105578	ANUPAM PATEL	
1249.	105586	AKHILESH SHIVWEDI	
1250.	105588	MANAS SANTOSH PANDEY	
1251.	105591	SHIVANGI KHARE	
1252.	105594	SHILPA MALVIYA	
1253.	105602	BHEEKHAM SINGH DHURWEY	
1254.	105611	GUNJA PARASTE	
1255.	105612	UMESH KUMAR KURMI	
1256.	105619	AMIT KUMAR ARYA	
1257.	105629	DHIRENDRA .	
1258.	105656	NITIN KUMAR JHOD	
1259.	105664	SHIVA SHAKYA	
1260.	105679	RAY SINGH BHIL	
1261.	105680	SHYAMU SHRIVASTAVA	
1262.	105689	KALPANA PAHADE	

S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
1263.	105698	VAIBHAV DESHMUKH	
1264.	105702	AKHIL RATHORE	
1265.	105705	ARUN KUMAR VERMA	
1266.	105707	RAJESH RATHORE	
1267.	105713	KAMAL SINGH MANDELIYA	
1268.	105715	ANIL KUMAR CHOUDHARY	
1269.	105721	ABHINAV RAHUL	
1270.	105723	GAURAV DONGRE	
1271.	105729	ALKA NAGAICH	
1272.	105730	ADITI YADAV	
1273.	105731	RITESH TIWARI	
1274.	105739	SAPNA UTTWANI	
1275.	105743	ARJUN KUMAR	
1276.	105750	MANJULATA MEHTO	
1277.	105751	NAVEEN BAWARIYA	
1278.	105754	EKTA GUPTA	
1279.	105757	NIDHI PATEL	
1280.	105762	NITESH PAWAR	
1281.	105763	KALPANA SONARE	
1282.	105764	VIKRAM SINGH	
1283.	105769	VARSHA PARTE	
1284.	105788	ADITI BHAWSAR	
1285.	105795	RAM KUMAR RAI	
1286.	105797	VIRENDRA SOLANKI	
1287.	105802	KISHOR VAMANKAR	
1288.	105812	MANISH KUMAR JAIN	
1289.	105818	OMPRAKASH JAMOD	
1290.	105821	AKHILESH KUMAR YADUWANSHI	
1291.	105822	TINESHWARI DHRUW	
1292.	105827	BALVEER SINGH RAJPOOT	
1293.	105831	ANKITA KHATARKAR	
1294.	105847	HARIVANSH PRASAD PRAJAPATI	
1295.	105861	VARSHA JAIN	
1296.	105867	SHWETA SILAWAT	
1297.	105873	KULDEEP MALIK	
1298.	105874	ISHWAR SINGH VERMA	
1299.	105875	SONALI YADAV	
1300.	105877	MEENAKSHI DAHRE	
1301.	105892	SHAIENDRA SAKET	
1302.	105894	VIKRAM DAWAR	

S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
1303.	105895	PALLAVI MALPANI	
1304.	105899	RITURAJ SINGH DANGI	
1305.	105911	GARIMA WAIKER	
1306.	105914	PRAVEEN PUROHIT	
1307.	105916	NARAYAN NANDEDA	
1308.	105920	VIJENDRA BHALEKAR	
1309.	105921	HIMANI MANWARE	
1310.	105923	NOOPUR SINGH	
1311.	105926	AMIT KUMAR TITORIYA	
1312.	105934	NAZMA NIZAMI	
1313.	105943	TRAPTI TURKAR	
1314.	105945	RAJEEV KUMAR SHENDRAM	
1315.	105950	RAKESH KUMAR KOL	
1316.	105958	SHRIRAM AHIRWAR	
1317.	105972	SANJEEV KUMAR DHURVE	
1318.	105976	MITHUN MEHTA	
1319.	105979	SANJEEV KUMAR PANDEY	
1320.	105982	RATNESH BHADORIYA	
1321.	105992	MANOJ KUMAR SAXENA	
1322.	106000	VIKAS KUMAR GAUTAM	
1323.	106019	SUREKHA JATAV	
1324.	106024	MADHVI MAURYA	
1325.	106037	MEGHA SHARMA	
1326.	106044	AKHILESH PRAJAPATI	
1327.	106057	SANJAY KUMAR PRAJAPATI	
1328.	106063	VISHAL SEN	
1329.	106092	SANDHYA RAWAT	
1330.	106097	MUKESH SAWLE	
1331.	106104	ABHISHEK SHARMA	
1332.	106119	RAM MOHAN AHIRWAR	
1333.	106120	PRAVEEN SONIYA	
1334.	106121	DR. RAHUL DUBEY	
1335.	106123	SANGEETA JAISWAL	
1336.	106134	KUMAR SHANU DEORIYA	
1337.	106137	GEETA UIKEY	
1338.	106138	ANAND TIWARI	
1339.	106141	SETU SINGH	
1340.	106149	DEV RAJ CHOUDHARI	
1341.	106151	VINAY MARKAM	
1342.	106156	MITALI SARIYAM	

S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
1343.	106159	ADITYA JANGHELA	
1344.	106161	ANJU AHIRWAR	
1345.	106178	RITU THAKUR	
1346.	106200	MANEESH KORI	
1347.	106209	NIRMALA MALVIYA	
1348.	106211	SATENDRA PATHAK	
1349.	106215	PRADEEP KUMAR TIWARI	
1350.	106216	MUMSHAR RAJA	
1351.	106218	AJIT KUMAR	
1352.	106223	SHAIFALI SHARMA	
1353.	106227	CHANCHLESH MARKAM	
1354.	106229	VIJAY KUMAR DHURVE	
1355.	106236	VEENA ADWANI	
1356.	106238	JAYSHREE VERMA	
1357.	106242	ANIL KUMAR SONI	
1358.	106248	YESHWANT SINGH DHAKAR	
1359.	106256	RAJESH UIKEY	
1360.	106257	KAMAL SINGH GURJAR	
1361.	106266	NEHA KATARE	
1362.	106268	DEEPAK PATEL	
1363.	106270	SANUJ MARAVI	
1364.	106274	SUNIL PRAJAPATI	
1365.	106275	ARJUN SINGH SOLANKI	
1366.	106276	NITESH PAL	
1367.	106279	PRIYANKA JAIN	
1368.	106281	NILESH PARMAR	
1369.	106284	SARITA CHOUDHARI	
1370.	106285	DHURVE ABHISHEK	
1371.	106287	NAVEEN GUPTA	
1372.	106303	OMESHWAR THAKRE	
1373.	106305	HARIPRASAD SAHU	
1374.	106315	SATISH KHATRI	
1375.	106322	POOJA SHARMA	
1376.	106323	TARUN RAHANGDALE	
1377.	106324	KOUSHAL VERMA	
1378.	106327	SUNITA JATAV	
1379.	106330	SARWASH NAGVANSHI	
1380.	106350	RAJESH KUMAR GUPTA	
1381.	106355	KONIKA KOSHTI	
1382.	106359	SWATI AMOLI	

S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
1383.	106365	SHUBHANGI MALJONIA	
1384.	106366	AJAY SINGH	
1385.	106371	KETAN VISHWAKARMA	
1386.	106373	DEV LAL MARKAM	
1387.	106378	MUKESH ARMO	
1388.	106385	UTTAM SINGH	
1389.	106387	DHEERAJ SHARMA	
1390.	106401	SANJU CHOUHAN	
1391.	106402	ARVIND SINGH BHADAURIA	
1392.	106405	HEENA KAUSOR	
1393.	106427	KAILASH MANDRE	
1394.	106432	PRASHANT KUMBHARE	
1395.	106442	ASHUTOSH PANDEY	
1396.	106443	MAHENDRA PRASAD TIWARI	
1397.	106445	PAWAN PADWAR	
1398.	106447	ASHISH KUMAR YADAV	
1399.	106453	SURABHI MEENA	
1400.	106456	UDAY BHAN SINGH VERMA	
1401.	106462	DHEERENDRA KUMAR KORI	
1402.	106464	SONAM PARIHAR	
1403.	106468	NIDHI CHOUDHARY	
1404.	106471	MAN SINGH LODHI	
1405.	106485	RUHI HAQUE	
1406.	106486	KEERTI ASATI	
1407.	106503	JYOTI SUNHARE	
1408.	106512	NEELIMA DHAKAD	
1409.	106514	SHRUTI PANDEY	
1410.	106515	PREETI UIKEY	
1411.	106519	VAISHALY JAIN	
1412.	106522	VEENA RAHANGDALE	
1413.	106527	NIMISH LACHORIA	
1414.	106540	GORISH BARMATE	
1415.	106544	MEENAKSHI SHRIVASTAVA	
1416.	106552	JAGPAL SINGH YADAV	
1417.	106566	RAJ KUMAR PATHAK	
1418.	106570	SHANI KUMAR BHATT	
1419.	106578	PUSPENDRA KUMAR VERMA	
1420.	106587	SARIKA PARASTE	
1421.	106588	SANJEEV SARATHE	
1422.	106601	NIGHAT SULTANA	



S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
1423.	106605	PURNIMA SEN	
1424.	106610	SANGITA CHOUREY	
1425.	106615	GOVARDHAN PRASAD	
1426.	106625	MANEESH THAKKAR	
1427.	106633	VIKAS PATEL	
1428.	106635	GOVIND SINGH THAKUR	
1429.	106645	PURUSHOTTAM MEGHWAL	
1430.	106662	SANJAY KUMAR BARAIYA	
1431.	106675	NAMRATA KHARE	
1432.	106695	ZAINAB HAMEED	
1433.	106702	KULDEEP CHOUBEY	
1434.	106703	NEHA NAGAR	
1435.	106711	DEEPAK SINGH SATRAIYA	
1436.	106717	DEVENDRA PATEL	
1437.	106718	NIDHI MAHOVIA	
1438.	106726	DEEPIKA RAWAT	
1439.	106733	LAKHANLAL BHAI SARE	
1440.	106737	SURESH SALAME	
1441.	106744	ADITI SINGH	
1442.	106746	HITESH KUMAR	
1443.	106748	ANJU ARYA	
1444.	106750	SUDAMA PRASAD YADAV	
1445.	106754	TARA CHANDRA	
1446.	106760	ANUPAM CHAUHAN	
1447.	106772	RAM KUMAR	
1448.	106773	KANCHAN BALA AMBEDKAR	
1449.	106776	RITESH SINGARE	
1450.	106786	BHUPENDRA MASRAM	
1451.	106788	SWAYAM SHRIVASTAVA	
1452.	106790	ANIMESH CHANDRA	
1453.	106794	RINKU SHARMA	
1454.	106802	CHANDRA KUMAR WATTE	
1455.	106806	SUNITA SOLANKI	
1456.	106816	SACHCHITA NAND TRIPATHI	
1457.	106817	PRATIKSHA SHYAM	
1458.	106836	KRATIKA VYAS	
1459.	106849	MAHENDRA SINGH KUSHWAH	
1460.	106858	AMIT PANDEY	
1461.	106865	DIVYA TRIPATHI	
1462.	106867	PRASHANT SINGH BHADORIA	

S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
1463.	106881	NIRALI TOMAR	
1464.	106888	BIJENDRA SINGH YADAV	
1465.	106899	ANAND SINGH RAJAWAT	
1466.	106926	NAVEEN BHARDWAJ	
1467.	106931	SHEPHALI AGRAWAL	
1468.	106939	MAYANK RANA	
1469.	106954	DINESH KUMAR CHOURSIYA	
1470.	106959	GAURISHANKAR RAWAT	
1471.	106960	JYOTI BALA	
1472.	106963	SIYARAM CHOUDHARY	
1473.	106968	RAVEESH SINGH BHADAURIA	
1474.	106970	DEEPAK ARYA	
1475.	106979	ASHUTOSH SHRIVASTAVA	
1476.	106986	SONU GUPTA	
1477.	106997	PREM NANDAN SINGH	
1478.	107007	DEEPALI CHANDORIYA	
1479.	107028	PREETI JATAV	
1480.	107029	MINI AGARWAL	
1481.	107036	DHARMENDRA RAJPUT	
1482.	107042	VIRENDRA KAUSHAL	
1483.	107047	RAJESH KUMAR DHAKAD	
1484.	107054	RAMESHWAR PRASAD AHIRWAR	
1485.	107060	PRADEEP KUMAR BHARGAVA	
1486.	107063	VISHAL KUMAR GUPTA	
1487.	107069	SATISH MATSANIYA	
1488.	107079	OMPRAKASH SINGH	
1489.	107084	KRITI DIXIT	
1490.	107087	VINOD KUMAR SHRIVASTAVA	
1491.	107096	AJAY GUPTA	
1492.	107103	ANSHU TIWARI	
1493.	107115	RAKESH SINGHAL	
1494.	107121	UTKARSH MISHRA	
1495.	107123	NARENDRA KUMAR PRAJAPATI	
1496.	107125	MAMATA AHIRWAR	
1497.	107126	GIRRAJ SINGH GURJAR	
1498.	107130	ALOK ARGAL	
1499.	107131	SATYAPRAKASH YADAV	
1500.	107134	BHARTI BHAMBHANI	
1501.	107145	VIMIT KUMAR GUPTA	
1502.	107149	AJAY KUMAR RITHORIYA	

S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
1503.	107151	SHARMA SUNEEL	
1504.	107156	DHARMENDRA SINGH CHOUHAN	
1505.	107172	ADARSH PATHAK	
1506.	107199	SANJEEV KUMAR KIRAR	
1507.	107205	NISHANT PATHAK	
1508.	107210	VIBHAKAR SHARMA	
1509.	107215	GAURAV BATHAM	
1510.	107219	ARVIND SINGH MAHOR	
1511.	107224	SHAIENDRA SHARMA	
1512.	107226	NEELAM SAVITA	
1513.	107247	PRIYANKA BUNKAR	
1514.	107252	DEEPTI TIWARI	
1515.	107254	ASHOK KUMAR VERMA	
1516.	107257	JYOTI VERMA	
1517.	107259	ARCHANA PARIHAR	
1518.	107262	MANEESH YADAV	
1519.	107275	ARVIND KUMAR SHARMA	
1520.	107280	PAWAN KUMAR DOHARE	
1521.	107281	RAJESH SINGH	
1522.	107289	SANGHMITRA BAUDDHA	
1523.	107294	KEERTI SINGH NARWARIYA	
1524.	107300	ANURADHA SINGH	
1525.	107302	ARVIND SINGH DIWAKAR	
1526.	107313	SMT DEEPTI JAISWAL	
1527.	107319	NAGENDRA SINGH GURJAR	
1528.	107323	DIVYA SHARMA	
1529.	107324	NAVITA SHIVHARE	
1530.	107328	MANISH SHRIVASTAVA	
1531.	107329	HIMANSHU AGARWAL	
1532.	107332	SHWETA BHADAURIA	
1533.	107342	SHIVANI AGARWAL	
1534.	107346	LAKHAN SINGH	
1535.	107354	RACHANA JAIN	
1536.	107366	MUKESH SINGH	
1537.	107367	PRASHANT KUMAR SHARMA	
1538.	107370	NAGENDRA SINGH SIKARWAR	
1539.	107376	AWANISH UPADHYAY	
1540.	107379	BRAHM KUMAR DUBEY	
1541.	107385	ASHISH KUMAR	
1542.	107388	VIKAS MATHE	

S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
1543.	107416	HERANDRE SHARMA	
1544.	107420	ASHUTOSH KHARE	
1545.	107424	NARESH SHARMA	
1546.	107427	SUMAN MIHORIYA	
1547.	107428	JITENDRA KUMAR KHISHANYA	
1548.	107437	KAPIL VYAS	
1549.	107440	RAJEEV KUMAR SAMADHIYA	
1550.	107450	HARENDRA SINGH TOMAR	
1551.	107451	PRIYANKA SINGH	
1552.	107463	YOGENDRA SINGH BHADORIA	
1553.	107465	ANURADHA SHARMA	
1554.	107472	RAHUL YADAV	
1555.	107480	ASHUTOSH BAGRI	
1556.	107492	SUMIT AGARWAL	
1557.	107506	MANOJ KUMAR RAGHUWANSHI	
1558.	107507	HEERENDRA SINGH KUSHWAH	
1559.	107512	SHISHUPAL SINGH KIRAR	
1560.	107513	ROHIT RAGHUWANSHI	
1561.	107525	ATIRAJ SENGAR	
1562.	107527	DHEERAJ SWARNKAR	
1563.	107543	GAURAV JAIN	
1564.	107557	CHARAN SINGH	
1565.	107561	RAKESH KUMAR LALIT	
1566.	107575	SUSHIL KUMAR MISHRA	
1567.	107585	PARATH DUVEY	
1568.	107641	RUSHALI PORAS	
1569.	107649	DESHRAJ MAHOUR	
1570.	107654	VARSHA PARIHAR	
1571.	107687	SURESH UMARAIYA	
1572.	107707	APURV GAUTAM	
1573.	107726	RAVI SHAKYA	
1574.	107728	ASHUTOSH .	
1575.	107731	MAHIP YADAV	
1576.	107735	ALOK VARSHNEY	
1577.	107740	LALITA GARG	
1578.	107742	KAUSHLENDRA SINGH MAWAI	
1579.	107744	NARENDRA SINGH PIPPAL	
1580.	107749	MAYANK YADAV	
1581.	107761	RAMAWATAR UPADHYAY	
1582.	107762	ADITYA SINGH BHADAURIYA	

S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
1583.	107769	SANGEETA SINGH	
1584.	107781	UDAY SINGH JATAV	
1585.	107784	AJAY PRATAP SINGH	
1586.	107785	PUSHKIN JAIN	
1587.	107798	NIDHI YADAV	
1588.	107812	GAURAV DUBEY	
1589.	107819	SURESH JADAV	
1590.	107822	RAVI PRAKASH YADAV	
1591.	107830	SUNIL KUMAR AGRAHARI	
1592.	107831	SHUBHAM SHARMA	
1593.	107832	DEEPA PARMAR	
1594.	107837	VIVEK RATHEE	
1595.	107856	KRISHNA PAL SINGH	
1596.	107859	VIJAY KUMAR PANDORIYA	
1597.	107867	JYESHTHA MAITRIE ARYA	
1598.	107877	SHIVRAJ MEENA	
1599.	107884	ETI SHARMA	
1600.	107894	AYUSHI GOYAL	
1601.	107895	BRAJENDRA SANSIYA	
1602.	107897	RAKESH SINGH CHAUHAN	
1603.	107898	RAVINDRA KUMAR SINGH KUSHWAH	
1604.	107905	CHAITANYA BABOO DHOKE	
1605.	107916	VIJAY SHRIVASTAVA	
1606.	107939	LALIT KUMAR SHARMA	
1607.	107952	KIRAN BALA	
1608.	107959	SUKANYA RANA	
1609.	107968	ASHISH BHARDWAJ	
1610.	107971	PREETI SHAKYA	
1611.	107979	KIRAN KHARE	
1612.	107982	DEEPAM KAUSHAL	
1613.	107989	MAHESH KUMAR DOHRE	
1614.	108013	DIWAN SINGH KIRAR	
1615.	108025	RAMVEER SINGH RAJPOOT	
1616.	108029	SNEH DEEP SINGH YADAV	
1617.	108037	SABITA PARIHAR	
1618.	108048	ALOK PRATAP SINGH ITORIYA	
1619.	108071	PRIYANKA PANDEY	
1620.	108080	ANUPAM SINGH	
1621.	108089	MANORMA SHAKYA	
1622.	108093	VIVEK GAUD	

S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
1623.	108095	SUMIT KUMAR JAIN	
1624.	108101	PARMANAND SONI	
1625.	108103	JYOTI KUSHWAH	
1626.	108120	DINESH KUMAR IMLAY	
1627.	108122	AMIT .	
1628.	108131	SANGEETA AHIRWAR	
1629.	108158	ARVIND SHARMA	
1630.	108161	DR ADITYA K TIWARI	
1631.	108171	PUSPENDRA SINGH HIMAUURIYA	
1632.	108173	SATYENDRA PRASAD	
1633.	108198	SANJEEV KUMAR	
1634.	108201	PRACHI SHARMA	
1635.	108203	ANUJ SHIVHARE	
1636.	108209	VINOD KUMAR KOL	
1637.	108213	DR. SANJEEVA KHAMARIYA	
1638.	108215	ARCHANA SHARMA	
1639.	108219	NEELAM DINKAR	
1640.	108220	MAHNEDRA SINGH MEENA	
1641.	108221	RAJNEESH DHAKAR	
1642.	108239	VINOD VIJOLIYA	
1643.	108252	BEERENDRA SINGH KUSHWAH	
1644.	108271	SAFALTA DUBEY	
1645.	108283	AJAY PRAKASH MISHRA	
1646.	108298	TINKAL MATHUR	
1647.	108301	SWATI PATHAK	
1648.	108302	SAPNA TIWARI	
1649.	108307	RAVI RAMAN PARASHAR	
1650.	108310	DEEPENDRA SINGH KUSHWAH	
1651.	108314	SHAILESH KUMAR	
1652.	108315	NIDHI BANSAL	
1653.	108321	SURESH KUMAR PAL	
1654.	108344	PARITOSH KUMAR SHILPKAR	
1655.	108380	BHEEM RAO ANAND	
1656.	108391	NEERAJ SINGH YADAV	
1657.	108413	MANISHA MISHRA	
1658.	108416	DHARAM SINGH	
1659.	108418	VEERENDRA DHARVE	
1660.	108421	MANOJ KUMAR AHIRWAR	
1661.	108427	NEERAJ SINGH	
1662.	108435	DINESH KUMAR	

S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
1663.	108444	SANJAY SINGH	
1664.	108445	ROHIT SHRIVASTAVA	
1665.	108446	MEENU MAGRAIYA	
1666.	108449	SEETESH KUMAR	
1667.	108458	POOJA YADAV	
1668.	108459	NISHA SHANKHWAR	
1669.	108473	SANGH PRIY SAMRAT	
1670.	108479	SHWETA SATHE	
1671.	108483	GOPAL KRISHAN PALIWAL	
1672.	108493	HARIDAS JAKHOUDIYA	
1673.	108494	MAMTA OJHA	
1674.	108503	VANDANA JAIN	
1675.	108504	RAJEEV SINGH PAWAIYA	
1676.	108509	SAURABH SHRIVASTAVA	
1677.	108517	VARSHA CHOUKOTIYA	
1678.	108522	POOJA SWARNKAR	
1679.	108523	SATISH JATAV	
1680.	108526	LAL DAS	
1681.	108529	KRISHAN KUMAR GOSWAMI	
1682.	108535	ANJU KAURAV	
1683.	108536	AJAY KUMAR JHA	
1684.	108542	BUDDH PRIYA SAMRAT	
1685.	108561	JAMAL SIDDIQUI	
1686.	108570	SANDEEP KUMAR TIWARI	
1687.	108601	SHYAM YADAV	
1688.	108615	VIKASH GUPTA	
1689.	108617	VINAY KUMAR DAVE	
1690.	108618	ANKIT KUMAR	
1691.	108625	RAVI CHOURASIA	
1692.	108637	UMESH SHARMA	
1693.	108641	ANKIT KHANDELWAL	
1694.	108644	MAYANK DWIVEDI	
1695.	108651	MAHESH SHIVHARE	
1696.	108653	ROHIT PACHAURI	
1697.	108660	SUNIL KUMAR SHIVHARE	
1698.	108685	JAY SINGH PARIHAR	
1699.	108689	PALLAVI TYAGI	
1700.	108690	KAMLESH SAINI	
1701.	108693	SITA PRASAD BAIS	
1702.	108694	ALOK KUMAR	

S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
1703.	108701	MANISH BABU	
1704.	108702	SWAPNIL SHRIVASTAVA	
1705.	108706	RUCHI AGRAWAL	
1706.	108712	SHAIENDRA ADIWASI	
1707.	108725	RAVI SHEKHAR SAHU	
1708.	108753	AMIT RATHOR	
1709.	108776	RAHUL GUPTA	
1710.	108781	MUKESH SINGH RAWAT	
1711.	108791	VINAY KUMAR THAGELE	
1712.	108792	UMESH KUMAR AHIRWAR	
1713.	108801	SHREELEKHA SHROTRIYA	
1714.	108812	DEVENDRA KUMAR VYAS	
1715.	108818	MOHIT YADAV	
1716.	108826	RAVI KANT NARVRIA	
1717.	108828	AKHILESH KUMAR PATHAK	
1718.	108834	SURENDRA KUMAR VIMAL	
1719.	108843	GAJENDRA SIKARWAR	
1720.	108853	VINAY KUMAR BHATT	
1721.	108868	ALOK KUMAR NAYAK	
1722.	108870	CHANDNI GODIYA	
1723.	108874	VINAY PRAJAPATI	
1724.	108882	MAHABEER SINGH	
1725.	108905	VARUN BADERIYA	
1726.	108908	PUSHPENDRA SINGH RAWAT	
1727.	108912	RAJENDRA KUMAR JATAV	
1728.	108918	ANAND KUMAR	
1729.	108933	AMIT KUMAR TAMRAKAR	
1730.	108935	ARVIND KUMAR LODHI	
1731.	108940	AMIT KUMAR GARG	
1732.	108941	ANSHUMAN MITTAL	
1733.	108947	RAVISHANKAR YADAV	
1734.	108950	RANJEET SINGH RANA	
1735.	108964	SHARIB KAUSAR	
1736.	108965	MAHAVEER JATAV	
1737.	108969	AMARNATH AHIRWAR	
1738.	108973	PRAMOD SHAKYA	
1739.	108981	CHANDRABHAN AHIRWAR	
1740.	108991	RAMNARESH MEENA	
1741.	108993	ABHA SENGAR	
1742.	109003	SHIVA BHADAURIA	



S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
1743.	109022	SANTOSH KARCHAM	
1744.	109033	VIKAS TIWARI	
1745.	109034	SACHIN SAXENA	
1746.	109041	ANAMIKA TIWARI	
1747.	109043	MANOJ KUMAR MARAVI	
1748.	109048	RASHMI WARKADE	
1749.	109049	ABHAYRAJ SINGH	
1750.	109051	VIKAS TIWARI	
1751.	109056	NISHA TRIPATHI	
1752.	109059	PRAMOD KUMAR SONI	
1753.	109072	ANJU PRADHAN	
1754.	109096	RAVINDRA KHOBRADE	
1755.	109107	VIVEK KUMAR PARASTE	
1756.	109111	POONAM SHRIVASTAVA	
1757.	109124	REETI SONWAY NAG	
1758.	109131	MOHAMMED YUNUSH QURESHI	
1759.	109133	SHASHI KUMAR GUJRE	
1760.	109135	VINAY KUMAR KOL	
1761.	109137	NEEERAJ NAMDEO	
1762.	109143	RAHUL KUMAR SONI	
1763.	109145	MADHUSUDAN DIWAN	
1764.	109149	ABHINAV TRIPATHI	
1765.	109150	ANIL KUMAR SINGH	
1766.	109170	ABHINAV KUMAR BARANGE	
1767.	109175	KIRTI PRABHA CHANDEL	
1768.	109180	SANTOSH KOL	
1769.	109183	BHAWNA ABHISHEK PRADHAN	
1770.	109205	JITENDRA KUMAR GUPTA	
1771.	109207	SANJAY KUMAR JAIN	
1772.	109209	PRABHAT KUMAR PATTI	
1773.	109211	VIKRAM JAIN	
1774.	109218	SUDHEER MOHAN AGRAWAL	
1775.	109223	UMA UIKEY	
1776.	109226	ASHA DWIVEDI	
1777.	109233	PEEYUSH BOPCHE	
1778.	109241	SANGEETA MARAVEE	
1779.	109244	ABHISHEK SINGH BAGHEL	
1780.	109248	RAJYASH VARDHAN KURIL	
1781.	109252	DIVYA GUPTA	
1782.	109253	DHIRENDRA SINGH BAGRI	

S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
1783.	109255	NAND KISHOR VERMA	
1784.	109256	SADHNA DHURVE	
1785.	109264	NORALD LEONARD SELVARAJ	
1786.	109266	FAREED AHMED	
1787.	109282	BHASKAR PANDEY	
1788.	109289	JYOTI YADAV	
1789.	109294	ASHISH KUMAR KORI	
1790.	109299	VIDYA PANDEY	
1791.	109301	PRAMOD KUMAR UIKEY	
1792.	109309	ASHISH JAIN	
1793.	109311	MEENA DASHARIYE	
1794.	109314	SHRIKANT TRIPATHI	
1795.	109319	RUCHI YADAV	
1796.	109320	PRADEEP KUMAR MARAVI	
1797.	109327	RAJENDRA KUMAR TRIPATHI	
1798.	109329	GEETANJALI SEN	
1799.	109335	DEVSHREE UIKEY	
1800.	109337	DEVENDRA SINGH DHURWEY	
1801.	109339	NEELESH JAISWAL	
1802.	109342	SEEMA PATEL	
1803.	109353	RAVI SHANKAR MARAVI	
1804.	109356	ASHISH KUMAR CHHIROLYA	
1805.	109358	AKHILESH SARYAM	
1806.	109359	SATYA SONI	
1807.	109364	RAJEEV GOYAL	
1808.	109369	POOJA SHARMA	
1809.	109372	SHRIKANT PATER	
1810.	109375	PARVATI MEHRA	
1811.	109389	KALPANA PATEL	
1812.	109391	PRIYANKA KARCHAM	
1813.	109395	ANJANA DUBEY	
1814.	109397	SANGITA DEVI YADAV	
1815.	109402	SATYAM MISHRA	
1816.	109409	POOJA RAI	
1817.	109413	BHOOPENDRA SINGH PANDRO	
1818.	109418	SONAM MOURYA	
1819.	109419	BASANT KUMAR PICHHODE	
1820.	109423	JIGYASA SAHU	
1821.	109427	SUDHIR KUMAR MISHRA	
1822.	109428	DEEPSHIKHA VISHWAKARMA	

S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
1823.	109430	MANORAMA TIWARI	
1824.	109435	SHIVANI BIRIYA	
1825.	109436	NEELMANI MARAVI	
1826.	109440	CHHAVI PANT	
1827.	109441	SNEHA MISHRA	
1828.	109448	SIDDHANT BAGDE	
1829.	109451	RUKMANI KUSHRAM	
1830.	109453	RACHIYATA AWASTHY	
1831.	109465	YOGESH UIKEY	
1832.	109466	VEER BAHADUR SINGH DHURWE	
1833.	109474	DEVENDRA KUMAR DWIVEDI	
1834.	109488	ASHISH KUMAR SHRIVASTAVA	
1835.	109489	NIDHI SINGH GOHAL	
1836.	109492	ABHISHEK SINGH	
1837.	109501	DEEPSHIKHA BHAGAT	
1838.	109504	PREETI GATHRE	
1839.	109507	DEBI PRASAD CHAKRABORTY	
1840.	109508	RANJITA JAIN	
1841.	109514	SATISH HALVA	
1842.	109522	VIJAY SINGH CHOUHAN	
1843.	109525	SHEETAL PATERIYA	
1844.	109535	MADHVI KACHHWAHA	
1845.	109536	POORNIMA KHANDAYAT	
1846.	109537	RITESH KUMAR CHOURASIA	
1847.	109547	ASHISH SONI	
1848.	109549	KRISHNA KUMAR PANDEY	
1849.	109550	PRASHANT KUMAR JAIN	
1850.	109555	MAHESH SINGH YADAV	
1851.	109560	NEHA JAIN	
1852.	109561	AMIT VERMA	
1853.	109562	RANJANA YADAV	
1854.	109567	RAJENDRA PRATAP SINGH	
1855.	109582	VIJAY NARAYAN SINGH THAKUR	
1856.	109587	KRISHNA SARAIYA	
1857.	109589	SHAIENDRA SAKWAR	
1858.	109593	PRABHAT KUMAR SONI	
1859.	109606	SHILPA MALEWAR	
1860.	109609	ANURODH SEN	
1861.	109611	RAMANUJ PRATAP SINGH DHURVE	
1862.	109613	POORAN SINGH WARKADE	

S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
1863.	109618	VIVEKANAND YADAV	
1864.	109619	SAPNA DHURWE	
1865.	109621	RUPENDRA WARKADE	
1866.	109626	DIGAMBER PRASAD DASHARIYE	
1867.	109628	PANKAJ PATEL	
1868.	109629	NISHA JAIN	
1869.	109631	KAMANI THAKUR	
1870.	109636	MUKESH KUMAR PANDEY	
1871.	109637	ROOPRAM SANODIYA	
1872.	109644	MAMTA PATLE	
1873.	109646	ALKA UIKEY	
1874.	109652	RAJENDRA KUMAR BARMAN	
1875.	109653	RAMBHAROS SINGH	
1876.	109654	SANDEEP GHANGHORIA	
1877.	109658	GANESH KUMAR DESHBHARTAR	
1878.	109661	PURAN SINGH THAKUR	
1879.	109662	SAUMYA SHARMA	
1880.	109665	ZAKIA ROOHI	
1881.	109667	CHANDRAKANT JHA	
1882.	109668	KANUPRIYA CHOUBEY	
1883.	109674	NAVMIDAS CHOUKIKAR	
1884.	109677	NEETI SONWAY	
1885.	109678	PANKAJ KUMAR GAHARWAR	
1886.	109680	ROHIT SISSONIYA	
1887.	109684	GEETA KORI	
1888.	109686	SHIVANI TARAM	
1889.	109688	LALITESH SINGH NAYAK	
1890.	109699	GAYATRI KOSTA	
1891.	109702	MANISH KUMAR VYAS	
1892.	109716	PRAMOD KUMAR MESHARAM	
1893.	109718	SHRADDHA BAGDE	
1894.	109719	JITENDRA SINGH YADAV	
1895.	109733	ANURAG SHUKLA	
1896.	109734	ASHISH CHOUDHARY	
1897.	109748	RAGHUVAR SHAH UIKEY	
1898.	109751	SONAL GOYAL	
1899.	109757	PRADEEP ARYA	
1900.	109763	PRIYANKA RAI	
1901.	109764	KAILASH DHURVEY	
1902.	109765	RAINA TAMIYA	

S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
1903.	109773	VIJAY KUMAR SINGH	
1904.	109781	ROOPALI UIKEY	
1905.	109783	BHARAT BHUSHAN RAY	
1906.	109786	VIKAS PANDEY	
1907.	109790	RUCHI JAGGI	
1908.	109792	SONI LAL GOND	
1909.	109793	PREMLATA SINGH	
1910.	109795	RAM MOHAN BHARTI	
1911.	109797	JAY N DUBEY	
1912.	109804	RAHUL KUMAR SAIYAM	
1913.	109805	RISHABH Thakur	
1914.	109810	SAVITA GADHWAL	
1915.	109812	ANUBHA CHOUDHARY	
1916.	109823	SUNAYNA BRAMHE	
1917.	109850	VIJAYSHRI DAWAR	
1918.	109862	PAWAN BAGHEL	
1919.	109864	POOJA BUNKAR	
1920.	109877	ANURAG PATEL	
1921.	109878	HOMENDRA PATLE	
1922.	109879	PURNIMA BHAGAT	
1923.	109883	SARFRAJ ISMAIL	
1924.	109896	SANDEEP KUMAR	
1925.	109899	ABHAY PATEL	
1926.	109900	SOM VRAT. TRIPATHI	
1927.	109905	GIRIRAJ DUBEY	
1928.	109921	RANU SHIVHARE	
1929.	109925	DIVYA RAI	
1930.	109931	CHANDNI CHOURASIA	
1931.	109932	DURGESH PATEL	
1932.	109933	VIVEK SINGH	
1933.	109937	SURENDRA KUMAR SAHU	
1934.	109940	DEEPTI RICHHARIA	
1935.	109941	RAVI KANT SHARMA	
1936.	109948	PURVI SINGH	
1937.	109951	VIVEK SINGH	
1938.	109953	HIMANSHU BHALAVI	
1939.	109961	ASHA MARAVI	
1940.	109964	DOLLY JAIN	
1941.	109972	ARUN AGRAWAL	
1942.	109981	AKANKSHA CHATURVEDI	

S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
1943.	109992	SAKET JAIN	
1944.	109996	AJAY KUMAR PRAJAPATI	
1945.	109998	SHITAL CHOUKE	
1946.	110002	RAM SUPHAL KORI	
1947.	110022	RAM LAKHAN SHARMA	
1948.	110025	SHASHANK SHENDE	
1949.	110040	ANJNA JAITWAR	
1950.	110045	SHASHANK ARMO	
1951.	110046	JYOTI RANI BRAMHE	
1952.	110049	NAVEEN NAGWANSHI	
1953.	110051	MAMTA KULASTE	
1954.	110057	PRAHLAD SINGH	
1955.	110059	GIRISH SINGH RAJPUT	
1956.	110060	UMESH KUMAR SANEKAR	
1957.	110066	SUSHMA DEVI RAWAT	
1958.	110067	SHIKHA SONI	
1959.	110071	VIKESH KUMAR BISEN	
1960.	110079	DHANESHWARI BHAGAT	
1961.	110082	KAMLESHWAR SINGH DHURWEY	
1962.	110083	VARSHA JHARIYA	
1963.	110087	DINESH KUMAR CHAMPEWAR	
1964.	110095	ABHYA SINGH GOUND	
1965.	110105	FIRDOUS AKHTAR RAYEEN	
1966.	110113	PRIYANKA JHARIYA	
1967.	110114	RANJEETA MARAVI	
1968.	110116	SATENDRA KUMAR BHALAVI	
1969.	110121	NIDHI LODHI	
1970.	110126	BABITA RAJPUT	
1971.	110127	RAVI SHANKAR PANDEY	
1972.	110130	MOHNISH WADIWA	
1973.	110139	NEETU UIKEY	
1974.	110141	ABHISHEK GAUTAM	
1975.	110142	KIRTI DUBEY	
1976.	110146	POONAM MESHARAM	
1977.	110149	LAXMI PANDEY	
1978.	110154	ANKUSH D CHOURE	
1979.	110155	BRIJESH DHURWEY	
1980.	110158	ABHISHEK TRIPATHI	
1981.	110161	AKANSHA TALYA	
1982.	110164	SHASHIKANT POURANIK	

S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
1983.	110167	SANJEEV JAIN	
1984.	110168	ANSHUL SHRIVASTAVA	
1985.	110171	VISHAL SINGH	
1986.	110173	ATUL KUMAR SAHU	
1987.	110177	NITIN SHRIVASTAVA	
1988.	110183	CHITRA RAI	
1989.	110189	SHWETA SHARMA	
1990.	110194	KRISHNAKANT UIKEY	
1991.	110198	GIRRAJ SINGH	
1992.	110200	MANJU DEVI	
1993.	110201	BRIJENDRA NATH SHARMA	
1994.	110206	RAJESH KUMAR MARKO	
1995.	110212	NITIN KUMAR BIJWE	
1996.	110218	VINITA YADAV	
1997.	110222	SONAM BHAGAT	
1998.	110223	SHEKHAR DUBEY	
1999.	110224	NISHA TRIPUDEY	
2000.	110233	SHAILENDRA KUMAR CHAUKSEY	
2001.	110234	PRATIBHA NARVETI	
2002.	110238	BARKHA AGRAWAL	
2003.	110239	SUSHAMA MISHRA	
2004.	110241	DUSHYANT NAMDEO	
2005.	110242	ANIL KUMAR WASNIK	
2006.	110243	NEERAJ KALMEGH	
2007.	110257	ASTHA BHALAVI	
2008.	110258	PRADEEP NARAYAN MISHRA	
2009.	110261	POOJA VERMA	
2010.	110265	PRAGATI GANVEER	
2011.	110270	JAISINGH SHIKARWAR	
2012.	110273	RAHUL KUMAR JAIN	
2013.	110285	ABHISHEK YADAV	
2014.	110286	JITENDRA PATHAK	
2015.	110287	VANDNA SINHA	
2016.	110290	ANJANA SINGH	
2017.	110291	PUSHPA PANDEY	
2018.	110294	LAXMI VERMA	
2019.	110304	SARIKA DIXIT	
2020.	110308	URVASHI GOUTAM	
2021.	110311	DEEPIKA KARCHAM	
2022.	110315	VINOD KUMAR WAHANE	

S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
2023.	110317	DEEPSHIKHA VERMA	
2024.	110322	SHRADDHA PATEL	
2025.	110330	BHAGWAT PRASAD MARAVI	
2026.	110333	SANDEEP SINGH	
2027.	110345	GOURAV BHADRASEN	
2028.	110346	RUPESHWARI KUNJAM	
2029.	110349	MANEESHA TIWARI	
2030.	110351	RAJESH SIRSAM	
2031.	110353	RASHMI TANTUWAY	
2032.	110356	GAURAV KUMAR PANDEY	
2033.	110374	JAIGOVIND SANODIYA	
2034.	110375	SARIKA RAWAT	
2035.	110388	BHAGVATI VERMA	
2036.	110391	SHIVANSHI WATHRE	
2037.	110400	SAURABH SINGH KUSHWAH	
2038.	110406	PANKAJ SHARMA	
2039.	110409	MANEESHA SAXENA	
2040.	110420	DEVENDRA KUMAR CHANDRAKAR	
2041.	110422	PANKAJ ARMO	
2042.	110437	ABHINANDANA SHARMA	
2043.	110438	SURESH KUMAR MARAVI	
2044.	110442	SONALI GUPTA	
2045.	110446	RANJEET SINGH DHURWEY	
2046.	110450	SAVITA GHONGDE	
2047.	110452	VASUNDHARA PULISTYA	
2048.	110457	MANOJ KUMAR DHURVE	
2049.	110460	PUSHPRAJ SINGH	
2050.	110469	ASHVANEE KUMAR	
2051.	110472	MAHENDRA KUMAR MARKAM	
2052.	110474	DEVENDRA KUMAR DEWANGAN	
2053.	110476	SHAILENDRA MESHARAM	
2054.	110483	RAHUL SINGH PANWAR	
2055.	110489	RICHA JAIN	
2056.	110490	COLLECTOR SAHAB TIWARI	
2057.	110497	SHWETA THAKUR	
2058.	110498	VINOD KUMAR SINGH	
2059.	110507	SAZIDA QURESHI	
2060.	110516	HEMESHWARI PATLE	
2061.	110522	GOPAL SINGH WARKADE	
2062.	110535	ARVIND KUMAR TIWARI	



S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
2063.	110536	RAVINDRA KUMAR PATLIYA	
2064.	110544	ANURAAG SHARMA	
2065.	110546	SUBODH GAUTAM	
2066.	110556	YOGENDRA RAJ	
2067.	110559	VIJAY YADAV	
2068.	110561	OMPRAKASH NARNOURE	
2069.	110567	SANTOSH KUMAR PATEL	
2070.	110570	AMARPAL SINGH	
2071.	110579	KAMAL SINGH CHOUHAN	
2072.	110582	AJIT KUMAR BAIGA	
2073.	110587	MONIKA BISEN	
2074.	110593	BRAJESH KUMAR NAGPURE	
2075.	110594	NEHA ARYA	
2076.	110595	CHITRALEKHA DHARNE	
2077.	110605	ABHILASHA DAWANDE	
2078.	110607	SANGEETA KHARE	
2079.	110609	ASHISH KUMAR PANDEY	
2080.	110630	DEEPSHIKHA YADAV	
2081.	110646	GHANSHYAM PRASAD CHOUDHARY	
2082.	110651	RAO KARMENDRA SINGH JAT	
2083.	110652	AMIT KUMAR SANODIYA	
2084.	110668	DHEERENDRA KUMAR WASNIK	
2085.	110673	CHITRASEN THAKRE	
2086.	110680	ASHOK KUMAR PARMAR	
2087.	110685	BHAGWANTI MARSKOLE	
2088.	110686	VIJAY SINGH MAURYA	
2089.	110687	VIVEK MOHAN CHAUDHARY	
2090.	110690	UTTAM KUMAR DWIVEDI	
2091.	110698	VISHAL SHRIVAS	
2092.	110707	MEENAXI CHOUHAN	
2093.	110713	SUNIL KUMAR YADAV	
2094.	110728	SHRISTI PANDEY	
2095.	110745	ANURAG TRIPATHI	
2096.	110777	KAVITA YEDE	
2097.	110779	PENENDRA KUMAR MESHARAM	
2098.	110783	DEEPAK KUMAR PATEL	
2099.	110784	MOHAN LAL CHAKRAVAISHYA	
2100.	110792	DEEPAK MISHRA	
2101.	110803	KAMLESH CHAWLE	
2102.	110804	ABHISHEK PRAKASH VERMA	

S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
2103.	110808	RAJ KUMAR PATEL	
2104.	110811	MANOJ KUMAR GONKAR	
2105.	110812	GOVIND KUMAR DUBEY	
2106.	110813	ASHISH SHARMA	
2107.	110816	DEEPALI BHOJAK	
2108.	110820	HEM SINGH SHYAM	
2109.	110822	BHAWNA SHARMA	
2110.	110825	JITENDRA KUMAR SHARMA	
2111.	110830	AMRITA TRIPATHI	
2112.	110836	SHIVANGEE ANURAGI	
2113.	110842	DHARMENDRA KUMAR VERMA	
2114.	110848	SHASHI KAPOOR GADPALE	
2115.	110850	GOWERDHAN PATHE	
2116.	110854	AMIT SINGH BHAMAROLIYA	
2117.	110855	SATYENDRA DHURWE	
2118.	110858	DEEPSHIKHA KHARE	
2119.	110860	JYOTI SINGH	
2120.	110861	KALYAN SINGH YADAV	
2121.	110872	ATULESH KUMAR SINGH	
2122.	110873	ARJUN BELWANSHI	
2123.	110876	NANDINI SARAF	
2124.	110880	RAMNATH DHURWEY	
2125.	110881	ANSHUL GARG	
2126.	110883	SONIKA SINGH PARIHAR	
2127.	110884	SHIVA NAND SHUKLA	
2128.	110886	PRABHATI AMRAWANSHI	
2129.	110888	ABHISHEK SINGH THAKUR	
2130.	110891	GEETA URVEDI	
2131.	110897	KUSH BOHRE	
2132.	110898	ASHA DEVI PATLE	
2133.	110901	SHASHIBHUSHAN TIWARI	
2134.	110910	VARSHA CHADDHA	
2135.	110915	PUSHPENDRA PANDRE	
2136.	110919	JAYADEEP MARSKOLE	
2137.	110922	DHARMENDRA KUMAR AHIRWAR	
2138.	110923	ANJANA TRIPATHI	
2139.	110926	SACHIN MARAVI	
2140.	110931	RITA DWIVEDI	
2141.	110933	NAND KISHORE PATHAK	
2142.	110934	AMIT SINGH THAKUR	

S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
2143.	110936	ABHA TRIPATHI	
2144.	110939	PRAVEEN KUMAR SINGH	
2145.	110963	SUCHITA EKKA	
2146.	110964	SOUMYA SHUKLA	
2147.	110965	SUKHDEV SINGH WARKADE	
2148.	110972	SHIV PAL SINGH BANSI	
2149.	110975	KHUSHBOO NECHLANI	
2150.	110988	MANJUL PATEL	
2151.	110992	KRATIKA YADAV	
2152.	110994	SHIVANI MOURYA	
2153.	110996	RAM KUMAR KOL	
2154.	110998	CHANDRA MANI DWIVEDI	
2155.	111004	KAMAL KANT PARASTE	
2156.	111006	JAWAHAR LAL PATEL	
2157.	111012	UMESH PRAJAPATI	
2158.	111014	SANDEEP KUMAR OJHA	
2159.	111016	SHYAM LAL SINGORE	
2160.	111019	SHRIVAS SANDEEP	
2161.	111027	KULDEEP SHRIVASTAVA	
2162.	111033	SHAIENDRA WASNIK	
2163.	111038	SHRADDHA SONI	
2164.	111040	LAVKESH SHRIVASTAVA	
2165.	111056	SHASHI BHUSHAN DUBEY	
2166.	111057	ANUPAM DUBEY	
2167.	111062	SANTOSH YADAV	
2168.	111066	RITESH PATEL	
2169.	111070	SANJEEV KUMAR GOSWAMI	
2170.	111079	MILIND KUMAR SUKHDEVE	
2171.	111083	M A SHAUKAT	
2172.	111093	ARBIND KUMAR PATEL	
2173.	111102	RAMBABU ANURAGI	
2174.	111105	DILEEP KUMAR SHRIVAS	
2175.	111109	RAMHIT VYAS	
2176.	111111	SHWETA AGRAWAL	
2177.	111116	MEENA KORI	
2178.	111128	SWEETY YADAV	
2179.	111130	SIDDHARTH PATEL	
2180.	111136	VARSHA JHARIYA	
2181.	111138	ANITA LAKRA	
2182.	111147	SURENDRA KUMAR CHIKHALE	

S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
2183.	111157	KALPANA MARKO	
2184.	111158	RUBY SHUKLA	
2185.	111162	NISHANT KUMAR SHRIVASTAVA	
2186.	111163	PUSHPENDRA SINGH MARAVI	
2187.	111164	RAM MOHAN SONI	
2188.	111172	VINDHYA YADAV	
2189.	111176	NIVEDITA SINGH	
2190.	111183	RAJESH KUMAR RAI	
2191.	111194	MANISH KUMAR PERMAR	
2192.	111195	ANKITA PRAJAPATI	
2193.	111198	KAVITA MARKO	
2194.	111203	ARUN PRATAP SINGH NIRANJAN	
2195.	111219	INDRASEN TUMRALI	
2196.	111222	ANIL KUMAR PANTHI	
2197.	111231	CHANDRAKANT SAHU	
2198.	111242	PRAMESH JAIN	
2199.	111243	SANDEEP SINGH PARIHAR	
2200.	111245	VINEETA BRAMHE	
2201.	111252	BHAGWAN SINGH DHURVEY	
2202.	111268	AKSHAT BUNDELA	
2203.	111270	VIBHA MARKAM	
2204.	111295	RAMKUMAR KAURAV	
2205.	111296	SAMEENA KHAN	
2206.	111303	KHELAWAN DAS CHAUDHARY	
2207.	111333	JYOTI DHURVE	
2208.	111334	RAMPATI RAWAT	
2209.	111343	SHIVAM PANDEY	
2210.	111347	SMRITI SRIVASTAVA	
2211.	111349	VARSHA DONGRE	
2212.	111352	RAJENDRA KUMAR YADAV	
2213.	111363	DINESH SINGH THAKUR	
2214.	111367	NEETU GUPTA	
2215.	111372	SWATI PATEL	
2216.	111373	NEETU JAISWAL MAHORE	
2217.	111376	LALITA VARKADE	
2218.	111377	KAMINI PARTE	
2219.	111378	NEELU SONI	
2220.	111379	MADHURI SHARMA	
2221.	111382	RAMESH KUMAR TEKAM	
2222.	111387	DR SHEKHAR BRAMHANE	

S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
2223.	111392	RAJESH PARTE	
2224.	111394	SHAILJA PATWA	
2225.	111406	RAMA KHATIK	
2226.	111412	SHALINI BEN	
2227.	111414	TRAPTI JHARIYA	
2228.	111415	ANOOP KUMAR NAMDEV	
2229.	111416	RANJEET SINGH ULARI	
2230.	111420	PRASHANT NAGDEVE	
2231.	111430	NITIN BHATT	
2232.	111441	KRISHNA KUMAR DEHARIYA	
2233.	111442	RAJENDRA KUMAR VERMA	
2234.	111448	USHA KIRAN GUPTA	
2235.	111449	KAMLESH AHIRWAR	
2236.	111461	LALIT GATHRE	
2237.	111462	RAJARAMAN MARKO	
2238.	111464	JANHAVI SHUKLA	
2239.	111465	KRISHNA KUMAR PADARIYA	
2240.	111466	PAVAN BHOJAK	
2241.	111467	AKASH JAIN	
2242.	111475	RAVISHANKER RANA	
2243.	111477	SHAILESH SHENDE	
2244.	111485	SUDHEER GEDAAM	
2245.	111488	MUKESH KUMAR BARHOLIYA	
2246.	111491	KRISHNA CHANDRA AWADHIYA	
2247.	111494	SURENDRA MARAVI	
2248.	111495	ROSHNI DONGRE	
2249.	111496	AAKASH MESHARAM	
2250.	111500	DOLLY BAGHEL	
2251.	111502	SURBHI NAMDEO	
2252.	111521	VIRENDRA GOLE	
2253.	111528	PRATIBHA JAIN	
2254.	111532	VANSHREE KURVETI	
2255.	111541	PRAVEEN RATAN WARKADE	
2256.	111567	KUNWAR VISHWANATH SINGH THAKUR	
2257.	111573	HARSHLAL PATEL	
2258.	111574	AMIT CHOUBEY	
2259.	111576	ASHOK KUMAR MAHORE	
2260.	111582	MANISH KUMAR TRIPATHI	
2261.	111583	ABHISHEK CHOUDHARY	
2262.	111584	SHIPRA GOSWAMI	

S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
2263.	111585	ASHISH DIXIT	
2264.	111593	RAJESH KUMAR SAKHARE	
2265.	111599	RISHIBHA SINGH NETAM	
2266.	111605	NILESH KUMAR SHARMA	
2267.	111632	RAJKUMAR ANURAGI	
2268.	111633	NIVEDITA POOSHAM	
2269.	111636	SHIVANI RAIKWAR	

### महत्वपूर्ण टीप:—

1. सूची में दर्शाये गये प्रत्याशियों का परीक्षा परिणाम पूर्णतया प्रावधिक (प्रॉविजनल) है, यदि प्रत्याशी राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2013 के लिये अधिसूचित नियमों एवं शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तो उनकी अर्हता समाप्त कर दी जाएगी.
2. राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2013 के आवेदकों द्वारा आवेदन-पत्र में यदि त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, असत्य, भ्रामक जानकारी देने अथवा आयोग की विज्ञप्ति द्वारा चाही गई वांछित औपचारिकताएं पूर्ण न करने के परिणाम स्वरूप चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक को अनर्ह किया जावेगा.
3. प्रावधिक अर्ह प्रत्याशियों की सूची आयोग कार्यालय के सूचना फलक पर देखने के लिए उपलब्ध है. यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण की त्रुटियों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय के सूचना फलक पर चस्पा की गई प्रत्याशियों की सूची ही प्रमाणिक मानी जायेगी.
4. राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2013 का परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटियां या लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को परीक्षा परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है.
5. न्यायालयीन प्रकरणों का अंतिम चयन परिणाम माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेगा.
6. राज्य सेवा मुख्य परीक्षा का परीक्षा परिणाम आवेदक आयोग की वेबसाईट [www.mppsc.com](http://www.mppsc.com), [www.mppscdemo.in](http://www.mppscdemo.in) एवं [www.mppsc.nic.in](http://www.mppsc.nic.in) पर देख सकेंगे एवं इसका प्रकाशन रोजगार और निर्माण के आगामी अंक में प्रकाशित किया जाएगा.

दिनेश जैन,  
परीक्षा नियंत्रक.

(637-A)

## विविध

### न्यायालयों की सूचनाएं

#### न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

मुस्कान सोलंकी पारमार्थिक ट्रस्ट 41, मानवता नगर पास इन्दौर (म.प्र.) की ओर से श्री सवैश सोलंकी (2) शंकर चौहान इन्दौर मध्यप्रदेश द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

**परिशिष्ट**

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	मुस्कान सोलंकी पारमार्थिक ट्रस्ट.
पता	:	कार्यालय-मुस्कान सोलंकी पारमार्थिक ट्रस्ट 41, मानवता नगर इन्दौर (म.प्र.).
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	रुपये 2,00,000/- (रु. दो लाख मात्र) बैंक ऑफ इंडिया से न्यास कापर्स फण्ड के लिये प्राप्त हुये हैं.

आज दिनांक 26 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(638)

**( फॉर्म-चार )**

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

राष्ट्रीय स्वाभिमान लोक न्यास, पता-फ्लेट नम्बर 203, दूसरी मंजिल, जितेन्द्र अर्पाटमेंट, 76, राजमहल कॉलोनी, इन्दौर (म.प्र.) की ओर से शरद जोशी पिता श्री चंद्रशेखर जोशी, निवासी-फ्लेट नम्बर 203, दूसरी मंजिल, जितेन्द्र अर्पाटमेंट, 76 राजमहल कॉलोनी, इन्दौर (म.प्र.) द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है, कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्याय के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

**परिशिष्ट**

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	राष्ट्रीय स्वाभिमान लोक न्यास
पता	:	कार्यालय-फ्लेट नम्बर 203, दूसरी मंजिल, जितेन्द्र अर्पाटमेंट, 76, राजमहल कॉलोनी, इन्दौर(म.प्र.).
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	रुपये 25,000/- (रु. पच्चीस हजार मात्र)

आज दिनांक 05 नवम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(647)

**( फॉर्म-चार )**

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

दिव्यान चेरीटेबल फाउण्डेशन ट्रस्ट, कार्यालय 23-24, स्ट्रीट नम्बर 02, मल्हारगंज इन्दौर (म.प्र.) की ओर से श्री संजय चौधरी व अन्य निवासी-ई-13, साकेत नगर, इन्दौर (म.प्र.) द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है, कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्याय के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

## परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	दिव्यान चेरीटेबल फाउण्डेशन ट्रस्ट
पता	:	कार्यालय-23-24, स्ट्रीट नम्बर 02, मल्हारगंज इन्दौर (म.प्र.).
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	रुपये 5,00,000/- (रु. पांच लाख मात्र)

आज दिनांक 01 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

वरदमूर्ति मिश्रा,  
रजिस्ट्रार.

(647-A)

## न्यायालय पंजीयक लोक न्यास मण्डला, जिला मण्डला

(प्रारूप क्रमांक-4)

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-5(1) के अन्तर्गत]

समक्ष-लोक न्यास की पंजीयक मण्डला, जिला मण्डला.

यह कि खेमलाल आ. गणेशप्रसाद सोनी, वर्तमान निवासी बम्हनी बंजर स्थायी निवासी मुकाम पो. बम्हनी बंजर, थाना बम्हनी बंजर, जिला व तहसील मण्डला मध्यप्रदेश ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अंतर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट ट्रस्ट के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 27 अगस्त, 2015 पर मेरे न्यायालय में विचार में लिया जायेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लोडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं किया जावेगा.

## अनुसूची

(लोक न्यास के नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

नाम	पता	सम्पत्ति का विवरण
सार्वजनिक चेरीटेबल ट्रस्ट	मु. पो. बम्हनी बंजर थाना बम्हनी बंजर, तहसील व जिला मण्डला.	निरंक

प्रवीण फुलपगारे,  
पंजीयक.

(648)

## न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) परगना व जिला भिण्ड

प्र.क्र. 01/2015-16/बी-113.

भिण्ड, दिनांक 27 नवम्बर, 2015

## फॉर्म-4

[नियम-(1) देखिये]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5 (1) के अन्तर्गत]

जैसा कि श्री शाह अनुराग जैन पुत्र रतनचंद जैन, अध्यक्ष एवं न्यास निर्माता पन्नालाल अयोध्याप्रसाद धर्मशाला ट्रस्ट सदर बाजार, भिण्ड ने पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र अनुसूची दर्शाई सम्पत्ति के पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 12 फरवरी, 2016 को विचार में लिया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के एक माह में माध्यम से अभिकर्ता या स्वयं मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है, उपयुक्त अवधि समाप्त के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.



## अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

1. ट्रस्ट का नाम : पन्नालाल अयोध्याप्रसाद धर्मशाला  
व पता. पब्लिक ट्रस्ट सदर बाजार, भिण्ड.
2. चल सम्पत्ति : सदर बाजार फ्रीगंज भिण्ड में स्थित भवन 50 फीट 9 इंच चौड़ा  
पूर्व से पश्चिम 120 फीट लम्बा उत्तर से दक्षिण जिसमें 5 दुकाने  
सदर बाजार की ओर बनी है.
3. अचल सम्पत्ति : निल.

बी. बी. अग्निहोत्री,  
अनुविभागीय अधिकारी.

(639)

## न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट होशंगाबाद

प्र.क्र. 1/बी-113(1)/2015-16.

## फार्म-4

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 की धारा-5(2) व मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट नियम-1963 के नियम-5 (1) के अंतर्गत]

आवेदक "ओम सुशीला नर्मदा चैरिटेबल लोक न्यास ट्रस्ट" होशंगाबाद द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 की धारा-4 के अंतर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् 30 दिन के अन्दर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तियार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं. निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

## परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

- पब्लिक ट्रस्ट का नाम : "ओम सुशीला नर्मदा चैरिटेबल लोक न्यास ट्रस्ट"
- पता : क्वा. नर्मदालय, कोठी बाजार, हर्णे गैस गोदाम के पीछे, होशंगाबाद,  
तहसील व जिला होशंगाबाद.
- अचल सम्पत्ति : ग्राम महेन्द्रबाड़ी, तहसील बाबई स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 71, 181  
एवं 184/2, कुल रकबा 2.100 हैक्टेयर.
- चल सम्पत्ति : निरंक.

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से प्रसारित किया गया.

रितु चौहान,  
पंजीयक.

(640)

## न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, रघुराजनगर, जिला सतना

## प्रारूप क्रमांक-5

[देखें नियम-5 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक रघुराजनगर सतना, जिला के समक्ष.

अतः मुझे यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-2 की उपधारा (4) के आशय के अधीन लोक न्यास का गठन करती है.

अब इसलिए मैं, रमेश कुमार सिंह लोक न्यासों का पंजीयक रघुराजनगर सतना, जिला मेरे न्यायालय में 2016 के जनवरी के 20 दिवस पर कथित अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) में यथा अपेक्षित मामले में जांच करने को प्रस्तावित करता हूँ।

एतद्वारा सूचना-पत्र दिया गया है कि कथित न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या इसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति या सुझाव देने का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः या प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा।

### अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

स्वामी खिम्यादास चेरिटेबिल ट्रस्ट मोतीराम आश्रम पुष्पराज कॉलोनी, सतना, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना म.प्र.

### सम्पत्तियों का विवरण

इस न्यास में निम्न सम्पत्तियाँ सम्मिलित हैं:-

चल सम्पत्ति	:	5100/- रु.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.

रमेश कुमार सिंह,

पंजीयक.

(641)

## न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट नीमच, जिला नीमच

नीमच, दिनांक 27 नवम्बर, 2015

### प्रारूप-चार

[ नियम-5(1)देखिए ]

[ मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 उपधारा-2 और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिए ]  
पंजीयक लोक न्यास, नीमच मध्यप्रदेश.

चूंकि श्री विमलकुमार पिता बालुराम पाटीदार, निवासी-158, पटवा काम्प्लेक्स, प्रायवेट बस स्टेण्ड, नीमच द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया गया है।

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 12 जनवरी, 2016 को विचार के लिए लिया जावेगा।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस विज्ञप्ति के द्वारा सूचना दी जाती है।

अतः मैं, आदित्य शर्मा, पंजीयक, लोक न्यास, नीमच मध्यप्रदेश का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 12 जनवरी, 2016 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा तथा अपेक्षित जांच प्रस्तावित करता हूँ।

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के अंदर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और न्यायालय के समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा।

### अनुसूची

लोक न्यास का नाम	:	श्री भारत उत्थान अभियान ट्रस्ट.
व पता	:	पटवा काम्प्लेक्स, प्रायवेट बस स्टेण्ड, नीमच (म.प्र.).

लोक न्यास की सम्पत्ति का विवरण :-

अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	रुपये 5,000/- (अक्षरी रुपये पांच हजार मात्र)

आदित्य शर्मा,  
अनुविभागीय अधिकारी.

(643)

## अन्य सूचनाएं

## कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी

दिनांक 19 नवम्बर, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57(1) सी/ग के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/क्यू.—कार्यालय सहायक पंजीयक (प्रशासन), सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सूची अनुसार संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित अधिकारी को धारा-70(1) के अन्तर्गत संशोधित कार्यालयीन आदेश क्र./परि./2015/526, दिनांक 28 जुलाई, 2015 द्वारा परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक	परिसमापक का नाम
1	2	3	4	5
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., झाकर	13/17-11-2000	979/08-12-2014	श्री जे. एस. रावत, स. नि.
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जोड़ाई	248/11-04-2008	980/08-12-2014	श्री जे. एस. रावत, स. नि.
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सिद्ड़ी (निवाली)	205/04-07-2006	986/08-12-2014	श्री जे. एस. रावत, स. नि.
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खड़क्या महु	228/31-10-2007	985/08-12-2014	श्री जे. एस. रावत, स. नि.
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सेंधवा	300/30-03-2012	100/08-12-2014	श्री जे. एस. रावत, स. नि.

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि उपरोक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना/देना निकल रहा है वह इस विज्ञप्ति प्रकाशित होने के 2 माह (60 दिवस) के अन्दर अपने दावे, मय प्रमाण सहित संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित परिसमापक को प्रस्तुत करें, उक्त अवधि में प्रस्तुत न होने वाले दावे या स्वत्व के सम्बन्ध में बावद् में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार कार्यवाही कर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है किन्ही भी व्यक्तियों, संस्था सदस्यों/भूतपूर्व सदस्यों, पदाधिकारियों के पास इन संस्थाओं से सम्बन्धित कोई लेखापुस्तकें, चल/अचल सम्पत्ति, अन्य कोई सामान हो तो इस सूचना के प्रकाशन के 1 माह के अन्दर संबंधित परिसमापक को प्रस्तुत करें व रसीद प्राप्त करें, अवधि खत्म होने के पश्चात् किसी भी व्यक्ति के पास इस समितियों की उपरोक्त चीजे होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी. जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा।

यह सूचना आज दिनांक 19 नवम्बर, 2015 को परिसमापक के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई।

जे. एस. रावत,

सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(632)

## कार्यालय उप आयुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

देवास, दिनांक 18 नवम्बर, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-69, 70, 71 के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/1927.—माँ नर्मदा फल, कृषि एवं साग-सब्जी सहकारी संस्था मर्यादित, खातेगांव, तहसील खातेगांव, जिला देवास, जिसका पंजीयन क्रमांक/38, दिनांक 04 फरवरी, 2015 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./1642, दिनांक 23 सितम्बर, 2015 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रति उत्तर देने हेतु दिनांक 06 अक्टूबर, 2015 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरांत भी आज दिनांक 18 नवम्बर, 2015 तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक/जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां, जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-

1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझ में वेष्टित हैं, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री आर. के. सोनी, सहकारी निरीक्षक, देवास को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री आर. के. सोनी, सहकारी निरीक्षक, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अंतर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(644)

के. एन. त्रिपाठी,  
उप-पंजीयक.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 51 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 18 दिसम्बर 2015-अग्रहायण 27, शके 1937

### भाग 3 ( 2 )

#### सांख्यिकीय सूचनाएं

#### कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 19 अगस्त, 2015

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना पाया गया है.—

(अ) **0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.**—तहसील अटेर (भिण्ड), लवकुशनगर, छतरपुर (छतरपुर), मल्हारगढ़ (मंदसौर), थांदला (झाबुआ), जोबट, अलीराजपुर, सोण्डवा, उदयगढ़ (अलीराजपुर), धार, कुक्षी, गंधवानी, डही (धार), राजपुर, निवाली (बड़वानी), हर्ई (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) **17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.**—तहसील सेंवड़ा (दतिया), जतारा (टीकमगढ़), नौगांव (छतरपुर), गढ़ाकोटा (सागर), चुरहट (सीधी), सुबासराटप्पा, सीतामऊ, धुन्धड़का (मंदसौर), महिदपुर, घटिया, उज्जैन, बड़नगर, नागदा (उज्जैन), शाजापुर (शाजापुर), च. शेखर, आ. नगर (अलीराजपुर), मनावर (धार), बड़वानी (बड़वानी), बुरहानपुर, खकनार (बुरहानपुर), इच्छावर (सीहोर), सीहोरा, पटन (जबलपुर), विजयराघौगढ़, बड़वारा (कटनी), शाहपुरा (डिण्डोरी), छिन्दवाड़ा, अमरवाड़ा (छिन्दवाड़ा), लखनादौन (सिवनी), कटंगी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(स) **35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.**—तहसील भिण्ड, मेहगांव (भिण्ड), गौरीहार (छतरपुर), मझगावां, नागौद, रामनगर (सतना), जैतहरी, अनूपपुर (अनूपपुर), मानपुर (उमरिया), रामपुरनैकिन (सीधी), भानपुरा (मंदसौर), कट्टीवाड़ा (अलीराजपुर), बदनावर, सरदारपुर (धार), ठीकरी (बड़वानी), सीहोर, आष्टा (सीहोर), सिवनी-मालवा, इटारसी (होशंगाबाद), पांडुर्ना, चौरई (छिन्दवाड़ा), बरघाट (सिवनी), लांजी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(द) **53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.**—तहसील अम्बाह, पोरसा, मुरैना, जौरा, सबलगढ़, कैलारस (मुरैना), गोहद, लहार, मिहोना, रोन (भिण्ड), ग्वालियर, डबरा, भितरवार, घाटीगांव (ग्वालियर), दतिया, भाण्डेर (दतिया), शिवपुरी, पिछोर, खनियाधाना, नरवर, बदरवास (शिवपुरी), मुंगावली, ईसागढ़, अशोकनगर, चन्देरी (अशोकनगर), निवाड़ी, पृथ्वीपुर, टीकमगढ़, वल्देवगढ़, पलेरा, ओरछा (टीकमगढ़), राजनगर, बिजावर, बक्स्वाहा (छतरपुर), बीना, खुरई, बण्डा, सागर, रहली, देवरी, राहतगढ़, केसली, मालथोन, शाहगढ़ (सागर), रघुराजनगर, रामपुर-बघेलान, उचेहरा, अमरपाटन, मैहर, बिरसिंहपुर (सतना), कोतमा, पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), बांधवगढ़, पाली (उमरिया), गोपदवनास, मझोली, कुसमी (सीधी), गरोट, मंदसौर, श्यामगढ़, संजीत (मंदसौर), जावद, नीमच, मनासा (नीमच), खाचरौद, तराना (उज्जैन), मो. बड़ोदिया, शुजालपुर, कालापील, गुलाना (शाजापुर), धरमपुरी (धार), पाटी (बड़वानी), नेपालनगर (बुरहानपुर), बैरसिया, बैरागढ़ (भोपाल), नसरूल्लागांज, बुधनी (सीहोर),

होशंगाबाद, बाबई, सोहागपुर, पिपरिया, वनखेड़ी, पचमढी (होशंगाबाद), जबलपुर, मझौली, कुंडम (जबलपुर), कटनी, रीठी, बहोरीबंद, ढीमरखेड़ा, बरही (कटनी), डिण्डोरी, बजाग (डिण्डोरी), जुन्नारदेव, परासिया, तामिया, सोंसर, बिछुआ, चांद, मोहखेड़ा (छिन्दवाड़ा), सिवनी, केवलारी, कुरई, घन्सौर, घनोरा, छपारा (सिवनी), बालाघाट, वारासिवनी, बैहर (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(ड) 245 मि. मी. से 450 मि. मी. तक.—तहसील करैरा, कोलारस, पोहरी (शिवपुरी), बड़ामलहरा (छतरपुर), सिहावल (सीधी), कयामपुर (मंदसौर) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

2. जुताई.—जिला श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, सागर, दमोह, रीवा, अनूपपुर, उमरिया, देवास, जबलपुर, कटनी, डिण्डोरी व सिवनी में धान की रोपाई व जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

3. बोनी.—जिला अनूपपुर में फसल, रामतिल व डिण्डोरी में उड़द, तुअर, कोदों-कुटकी व श्योपुर, ग्वालियर, रीवा, उमरिया, जबलपुर, कटनी व सिवनी में खरीफ फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

4. फसल स्थिति.—

5. कटाई.—

6. सिंचाई.—जिला श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, सागर, दमोह, अनूपपुर, उमरिया, देवास, बड़वानी, जबलपुर में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

7. पशुओं की स्थिति.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है।

8. चारा.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

9. बीज.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

10. खेतिहर श्रमिक.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं।

## मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 19 अगस्त, 2015

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि.मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी ( कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
<b>जिला मुरैना :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह	69.0				
2. पोरसा	62.0				
3. मुरैना	136.0				
4. जौरा	192.0				
5. सबलगाढ़	55.0				
6. कैलारस	60.0				
<b>जिला श्योपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान, बाजरा, ज्वार, तिल, तुअर, उड़द, मूँग सोयाबीन. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर	..				
2. कराहल	..				
3. विजयपुर	..				
<b>जिला भिण्ड :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) ज्वार, बाजरा, तिल समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर	10.0				
2. भिण्ड	50.0				
3. गोहद	75.0				
4. मेहगांव	36.2				
5. लहार	53.5				
6. मिहोना } 7. रौन }	159.0				
<b>जिला ग्वालियर :</b>	मिलीमीटर	2. बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	121.5				
2. डबरा	119.0				
3. भितरवार	128.8				
4. घाटीगांव	142.0				
<b>जिला दतिया :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गन्ना, मूँगफली, तिल समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेंवड़ा	32.0				
2. दतिया	160.0				
3. भाण्डेर	116.0				
<b>जिला शिवपुरी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	86.0				
2. पिछोर	61.0				
3. खनियाधाना	104.0				
4. नरवर	136.0				
5. करैरा	256.0				
6. कोलारस	260.0				
7. पोहरी	257.0				
8. बदरवास	202.0				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला अशोकनगर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. मुँगावली	177.0		4. (1) सोयाबीन, मक्का, गन्ना अधिक. उड़द कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	90.0		(2) ..		
3. अशोकनगर	124.0				
4. चन्देरी	112.0				
5. शाढौरा	..				
<b>जिला गुना :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	..		(2) ..		
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. कुम्भराज	..				
<b>जिला टीकमगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	130.0		4. (1) धान, उड़द, मूंग, मूंगफली, सोयाबीन, बिगड़ी हुई. ज्वार, मक्का, तिली, गन्ना समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	121.0		(2) ..		
3. जतारा	23.0				
4. टीकमगढ़	144.0				
5. बल्देवगढ़	154.0				
6. पलेरा	81.0				
7. ओरछा	149.0				
<b>जिला छतरपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. लवकुशनगर	15.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	36.0		(2) ..		
3. नौगांव	32.4				
4. छतरपुर	13.2				
5. राजनगर	94.7				
6. बिजावर	129.0				
7. बड़ामलहरा	256.6				
8. बक्स्वाहा	150.4				
<b>*जिला पन्ना :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. अजयगढ़	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. पन्ना	..		(2) ..		
3. गुन्नौर	..				
4. पवई	..				
5. शाहनगर	..				
<b>जिला सागर :</b>	मिलीमीटर	2. रोपाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	143.2		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदों, उड़द, मूंग, अरहर, तिल, मूंगफली, सोयाबीन समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	62.2		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बण्डा	54.2				
4. सागर	157.9				
5. रेहली	143.4				
6. देवरी	93.0				
7. गढ़ाकोटा	21.6				
8. राहतगढ़	159.7				
9. केसली	105.0				
10. मालथोन	109.2				
11. शाहगढ़	222.0				



1	2	3	4	5	6
<b>जिला दमोह :</b>	मिलीमीटर	2. रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) ज्वार, सोयाबीन, उड़द, तुअर, मूंग, गन्ना, धान, तिल सुधरी हुई. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा	..				
2. बटियागढ़	..				
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
<b>जिला सतना :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) सोयाबीन, तिल, धान अधिक. तुअर, उड़द समान. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	142.6				
2. मझगवां	50.0				
3. रामपुर-बधेलान	140.0				
4. नागौद	46.8				
5. उचेहरा	86.0				
6. अमरपाटन	70.0				
7. रामनगर	39.0				
8. मैहर	85.0				
9. बिरसिंहपुर	57.0				
<b>जिला रीवा :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) सोयाबीन, उड़द, मूंग अधिक. धान, कम. तुअर समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्योंथर	..				
2. सिरमौर	..				
3. मऊगंज	..				
4. हनुमना	..				
5. हुजूर	..				
6. गुढ़	..				
7. रायपुरकुर्चिलियान	..				
<b>*जिला शहडोल :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. सोहागपुर	..				
2. ब्यौहारी	..				
3. जैसिंहनगर	..				
4. जैतपुर	..				
<b>जिला अनूपपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं रामतिल व धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, तुअर, कोदों-कुटकी कम. मक्का, सोयाबीन, तिल समान. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी	48.8				
2. अनूपपुर	41.8				
3. कोतमा	88.9				
4. पुष्पराजगढ़	69.1				
<b>जिला उमरिया :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का, तिल अधिक. धान, ज्वार, सोयाबीन, मूंग, कोदों-कुटकी, उड़द, मूंगफली कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	126.6				
2. पाली	83.0				
3. मानपुर	40.0				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला सीधी :</b>	मिलीमीटर	2.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, तुअर, तिल, उड़द, मूँग कम. ज्वार, मक्का समान. (2) ..	5. ... 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. ... 8. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	132.0				
2. सिंहावल	253.8				
3. मझौली	81.4				
4. कुसमी	54.0				
5. चुरहट	31.6				
6. रामपुरनैकिन	42.8				
<b>जिला सिंगरौली :</b>	मिलीमीटर	2.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. ... 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. ... 8. पर्याप्त.
1. चितरंगी	..				
2. देवसर	..				
3. सिंगरौली	..				
<b>जिला मन्दासौर :</b>	मिलीमीटर	2.	3. ... 4. (1) सोया अधिक. मक्का कम. (2) ..	5. ... 6. संतोषप्रद चारा पर्याप्त.	7. ... 8. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	24.0				
2. भानपुरा	47.8				
3. मल्हारगढ़	15.0				
4. गरोठ	58.7				
5. मन्दासौर	57.0				
6. श्यामगढ़	105.2				
7. सीतामऊ	33.4				
8. धुन्धड़का	29.0				
9. संजीत	74.3				
10. कयामपुर	247.0				
<b>जिला नीमच :</b>	मिलीमीटर	2.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) सोयाबीन, मक्का अधिक. तिल, तुअर, मूँगफली कम. उड़द समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावद	126.4				
2. नीमच	66.0				
3. मनासा	61.0				
<b>जिला रतलाम :</b>	मिलीमीटर	2.	3. ... 4. (1) सोयाबीन, मक्का, कपास समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावरा	..				
2. आलोट	..				
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. पिपलौदा	..				
6. रतलाम	..				
<b>जिला उज्जैन :</b>	मिलीमीटर	2.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) सोयाबीन, मक्का. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खाचरौद	64.0				
2. महिदपुर	20.0				
3. तराना	149.0				
4. घटिया	33.0				
5. उज्जैन	22.0				
6. बड़नगर	20.0				
7. नागदा	27.0				
<b>जिला आगर :</b>	मिलीमीटर	2.	3. ... 4. (1) सोयाबीन, मक्का, ज्वार. (2) ..	5. ... 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. ... 8. पर्याप्त.
1. बड़ौद	..				
2. सुसनेर	..				
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
<b>जिला शाजापुर :</b>	मिलीमीटर	2.	3. ... 4. (1) सोयाबीन, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. ... 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	70.0				
2. शाजापुर	19.2				
3. शुजालपुर	91.0				
4. कालापीपल	102.0				
5. गुलाना	143.0				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला देवास :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..		4. (1) गन्ना अधिक. कपास, तिल, मूँगफली कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	..		(2) ..		
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नौद	..				
6. खातेगांव	..				
<b>जिला झाबुआ :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. थांदला	1.8		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	..		(2) ..		
3. पेटलावद	..				
4. झाबुआ	..				
5. राणापुर	..				
<b>जिला अलीराजपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जोवट	16.0		4. (1) मक्का, उड़द, मूँगफली, सोयाबीन अधिक, ज्वार, बाजरा, कपास तुअर.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	12.8		(2) ..		
3. कट्टीवाड़ा	45.8				
4. सोण्डवा	1.0				
5. उदयगढ़	9.4				
6. च.शे.आ. नगर	21.0				
<b>जिला धार :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. बदनावर	47.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	35.0		(2) ..		
3. धार	12.8				
4. कुक्षी	5.0				
5. मनावर	23.0				
6. धरमपुरी	91.0				
7. गंधवानी	10.0				
8. डही	3.0				
<b>जिला इन्दौर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	..		(2) ..		
3. इन्दौर	..				
4. महु	..				
(डॉ. अम्बेडकरनगर)					
<b>जिला खरगौन :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	..		4. (1) मक्का, बाजरा, कपास, मूँगफली, अलसी, राई-सरसों अधिक. ज्वार, धान, तुअर, गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	..		(2) ..		
3. सेगांव	..				
4. खरगौन	..				
5. गोगावां	..				
6. कसरावद	..				
7. भगवानपुरा	..				
8. भीकनगांव	..				
9. झिरन्या	..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला बड़वानी :</b>	मिलीमीटर	2. ...	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	20.7		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. ..
2. ठीकरी	41.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. राजपुर	15.0				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	61.0				
7. निवाली	1.0				
<b>जिला खण्डवा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. खण्डवा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	..				
<b>जिला बुहानपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुहानपुर	27.6		4. (1) कपास, मूंगफली.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	29.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	70.0				
<b>*जिला राजगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. जीरापुर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. खिलचीपुर	..		(2) ..		
3. राजगढ़	..				
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. पचोर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
<b>जिला विदिशा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	..				
4. बासौदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. गुलाबगंज	..				
8. ग्यारसपुर	..				
<b>जिला भोपाल :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	62.18		4. (1) ..	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. हुजूर/बैरागढ़	103.23		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
<b>जिला सीहोर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. सीहोर	46.5		4. (1) ..	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	37.0		(2) ..	..	
3. इछावर	32.0				
4. नसरूल्लागंज	90.0				
5. बुधनी	119.0				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला रायसेन :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	..		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, तुअर, उड़द, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, गन्ना.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	..		(2) ..		
3. बेगमगंज	..				
4. गौहरगंज	..				
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. बाड़ी	..				
8. उदयपुरा	..				
<b>जिला बैतूल :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. घोडाडोंगरी	..		(2) ..		
3. शाहपुर	..				
4. चिचोली	..				
5. बैतूल	..				
6. मुलताई	..				
7. आठनेर	..				
8. आमला	..				
<b>जिला होशंगाबाद :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	49.4		4. (1) गन्ना अधिक. तिल कम. मूंगफली समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	159.1		(2) ..		
3. बावई	69.0				
4. इटारसी	46.2				
5. सोहागपुर	120.0				
6. पिपरिया	126.0				
7. बनखेड़ी	60.4				
8. पचमढ़ी	195.4				
<b>जिला हरदा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	..		4. (1) सोयाबीन.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	..		(2) ..		
3. टिमरनी	..				
<b>जिला जबलपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोरा	21.2		4. (1) तिल.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाटन	29.9		(2) ..		
3. जबलपुर	54.1				
4. मझौली	116.5				
5. कुण्डम	58.0				
<b>जिला कटनी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	87.8		4. (1) धान, तिल, तुअर, कोदो, मक्का, ज्वार, मूंग, उड़द.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. रीठी	81.0		(2) ..		
3. विजयराघौगढ़	28.0				
4. बहोरीबंद	155.0				
5. ढीमरखेड़ा	109.0				
6. बडवारा	22.0				
7. बरही	67.0				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला नरसिंहपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. करेली	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नरसिंहपुर	..				
4. गोटेगांव	..				
5. तेन्दूखेड़ा	..				
<b>जिला मण्डला :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नैनपुर	..				
4. मण्डला	..				
5. घुघरी	..				
6. नारायणगंज	..				
<b>जिला डिण्डोरी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं उड़द, तुअर, एवं कोदों-कुटकी व धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	59.6		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बजाग	123.7		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुरा	20.4				
<b>जिला छिन्दवाड़ा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	29.8		4. (1) धान, मक्का अधिक. सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	80.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	57.8				
4. जामई (तामिया)	79.0				
5. सोंसर	105.2				
6. पांडुर्णा	48.3				
7. अमरवाड़ा	33.4				
8. चौरई	49.4				
9. बिछुआ	85.2				
10. हरई	11.0				
11. चांद	72.5				
11. मोहखेड़ा	124.6				
<b>जिला सिवनी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	91.6		4. (1) धान, ज्वार, कोदो-कुटकी, मक्का, तुवर, उड़द, मूंग, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, सन, गन्ना.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	122.8		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. लखनादौन	17.7				
4. बरघाट	48.7				
5. कुरई	95.0				
6. घंसौर	61.0				
7. घनोरा	80.5				
8. छपारा	87.0				
<b>जिला बालाघाट :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	165.2		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	41.3		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. बैहर	150.0				
4. वारासिवनी	113.7				
5. कटंगी	23.6				
6. किरनापुर	..				

टीप.— \*जिला पन्ना, शहडोल, राजगढ़ से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,  
आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(636)